



# हिन्दी दैनिक राजनामा इन्डो गल्फ



www.Newsindogulf.com/Email:-Newsindogulf730@gmail.com

सच्चाई में है दम, सच लिखते हैं हम

पटना, शनिवार

24 अगस्त 2024

वर्ष: 02 अंक: 102

पृष्ठ-12

PRGI NO - BIHHIN/2023/86924

मूल्य - ₹ 3

पटना संस्करण

## बीफ न्यूज

ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हेमंत ने ठगा नहीं: शिवराज सिंह चौहान,



एजेन्सी नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का उल्लेख करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उनके सभी करीबियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। चौहान ने आरोप लगाया, हाइकोर्ट को सगा नहीं, जिनको हेमंत ने ठगा नहीं। इन्होंने शिव सोरेन के साथ काम किया है लेकिन जिस तरह उनका अपमान किया गया, कोई भी आहत होगा। इन्होंने शिव सोरेन के साथ काम किया है। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में एक हैं जिन्होंने शिव सोरेन के साथ काम किया है। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में एक हैं जिन्होंने शिव सोरेन के साथ काम किया है।

# देशवासियों को पीएम मोदी ने दी पहले अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं आज का दिन भारत और अंतरिक्ष इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है

इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी फैसले



शुभकामनाएं। हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। वह हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का दिन भी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी और डॉ. मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों पर खुशी व्यक्त की और पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर लिखा, "आज हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसी की अविश्वसनीय यात्रा का जश्न मनाते हैं। रॉकेट के पुर्जे ले जाने से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। डॉ. मनसुख मंडाविया के साथ, हमारी अंतरिक्ष यात्रा पीएम जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जारी है क्योंकि हम 2024 में गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। पर, आइए हम को चंद्र विजय से लेकर विस्मयकारी मिशन तक, भारत की अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों का जश्न मनाएं। हम अपने वैज्ञानिकों और रू को प्रतिभा को सलाम करते

## 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे पीएम मोदी? इस दावे ने देश दुनिया में मचाई हलचल



एजेन्सी नई दिल्ली: 4 जून के बाद से क्या पीएम मोदी को कुर्सी खतरे में है? इसी एक सवाल को लेकर देश की राजनीति घूम रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार मोदी 3.0 को बैसाखियों की सरकार बताया जा रहा है। साधु दत्ता भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी मोदी सरकार से समर्थन वापस लेकर इसे गिरा सकते हैं। फिर बत चोट बिल को जेपीसी के पास भेजना ही या फिर लैटल एटी वाले विज्ञापन को वापस लेना इस सरकार में कई ऐसे चीज देखने को मिली जो इससे पहले के मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब पीएम मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। राजनीति, अर्थशास्त्र और कई बड़े कुर्सी करने वाले राजनेता जिनकी प्रविण्यवर्षों को पहली नजर में नजर अंदाज तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है। राजनीति के अंदाज के लिए मशहूर है जो अपने बयानों के लिए मशहूर है जो राजनीति में हलचल पैदा करने के लिए मशहूर है। वह बीजेपी में है लेकिन पीएम मोदी पर जुबानी प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दीवार तो जैसे हमेशा से उनके निशाने पर ही रहा है। मोदी 3.0 को रात की सांस भी नहीं लेने देते हैं। 17 सितंबर को रात ऐसा क्या होने वाला है कि प्रधानमंत्री का चेहरा ही बदल जाएगा और अबकी बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा जिसने अटकलें का बाजार गम कर दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो वे अन्य तरीकों से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। बत दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। जिसके साथ ही वो 75 साल के हो जाएंगे।

## पहले चरण की 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है NC, कांग्रेस को मिलेंगी इतनी सीटें



एजेन्सी नई दिल्ली: नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए गठबंधन करने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित होने के बाद 18 सितंबर को अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए जा रहा है। पहले चरण में 24 सीटों में से 16 कश्मीर और 8 जम्मू क्षेत्र में हैं। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होगा। सूत्रों ने बताया

## राजस्थान: रेजिडेंट डॉक्टरों ने 11 दिवसीय हड़ताल को समाप्त किया

एजेन्सी कोलकाता में महिला डॉक्टरों के साथ दुर्घटना और हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में जारी आंदोलन के समर्थन में हड़ताल कर रहे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही अपनी हड़ताल को समाप्त करने का फैसला किया है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टरों (जार्ड) के अध्यक्ष डॉ. मनोहर सिंगले ने कहा कि बृहस्पतिवार रात एक बैठक में उच्चतम न्यायालय के एवं राज्य सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। हड़ताल के दौरान न्यायालय ने दिन में प्रदर्शनकारी

## 5 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टली

एजेन्सी नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब पीने का मामला में राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टली दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोबीआई को एक हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। इस बीच, सोबीआई ने केजरीवाल की जमानत पर हलफनामा दाखिल किया, जबकि जॉन एंजेसी द्वारा गिरफ्तारी की चुनौती देने वाले मामले में उसने एक हफ्ते का समय

## अनिल अंबानी पर सेबी ने लगाया 5 साल का व्यापारिक प्रतिबंध, भरना होगा 25 करोड़ का जुर्माना

एजेन्सी नई दिल्ली: बाजार निियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से घन के हेरिफेर के लिए प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उर्ध्वेकिसी भी सूचीबद्ध कंपनी या निियामक के साथ पंजीकृत भाग्यव्य में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्यात्म (केएमपी) के रूप में कार्य करने सहित प्रतिभूति बाजार के साथ किसी भी जुड़व से पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, निियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और

## 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद, जानें क्या रहेगा बंद क्या नहीं, उद्धव ठाकरे ने की खास अपील

एजेन्सी नई दिल्ली: महाराष्ट्र विकास आगड़ी (एमवीए) ने ठाणे जिले के चंद्रपुर में एक स्कूल में दो कुर्बतियों पर कथित बौद्ध उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को एक दिवसीय 'पक्षरूप बंद' का आह्वान किया है। एमवीए के विभिन्न सहयोगी दलों - कृषि, उद्यम, उद्यम की अनुवाद वाली शिवसेना (यूबीटी) और श्रम पर्व की अनुवाद वाली एनसीपी (एसपी) ने मुंबई में एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया। राज्य में विश्व के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि

## Kolkata rape-murder case: आरोपी संजय रॉय को झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

एजेन्सी कोलकाता: कोलकाता में बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत का वह फैसला इस जघन्य अपराध के खिलाफ में उसकी गिरफ्तारी के बाद आया है। 10 अगस्त को, कोलकाता के आर.जी. कर मॉडल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से 31 वर्षीय डॉक्टर का

## पहले कैराना से पलायन होता था, आज निवेश हो रहा है: योगी आदित्यनाथ

एजेन्सी मुजफ्फरनगर/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगले दो साल में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियां निकलती थीं तो पंजीमी युवाओं को उससे वांचत रखा जाता था, मगर आज यहां के युवा और बेटियां नौकरियां प्राप्त कर रही हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शूकर से प्रदेश में पुलिसकर्मियों की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निकलने वाली सरकारी नौकरियों में यहां के युवाओं को बढ़ावा देकर भाग लेना होगा। कोई माई का लाल युवाओं को योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। उन्होंने आगाह किया कि किसी ने भी युवाओं के प्रविण्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे जेल भेजने के साथ ही उसकी संपत्तियों को जप्त करके गरीबों में बांट दिया जाएगा। सोमवार को बीआईटी कॉलेज में आयोजित





# पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेली रोड पटना में दो दिवसीय क्षेत्रीय स्तर युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का शानदार शुभारंभ



**वरिष्ठसंवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
पटना, गुरुवार, 22 अगस्त,  
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेली रोड पटना में दो दिवसीय क्षेत्रीय स्तर युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का शानदार शुभारंभ हुआ। 23 एवं 24 अगस्त 2024 को संपन्न होने वाली इस प्रतियोगिता में पटना संभाग के सात विद्यालयों के 395 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं। भारत सरकार के

संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, लोकतंत्र के प्रति युवा पीढ़ी में विचारस पैदा करना तथा संसदीय कार्य प्रणाली से अच्छी तरह से अवगत कराना है। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान पटना साहित्य लोकसभा सांसद माननीय श्री रविशंकर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में

तथा दीक्षा विधानसभा के विधायक माननीय डॉक्टर संजीव चौरसिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में माननीय विधायक ने प्रतिभागियों से सच्चे मन से राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहने तथा अपनी लोकतांत्रिक परंपरा से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का आह्वान किया। माननीय सांसद ने अपने आशीर्वाचन में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रति अपनापन का भाव व्यक्त किया तथा संगठन की शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों को काफ़ी तारकी को। उन्होंने प्रतिभागों छात्र-छात्राओं से अपनी नेतृत्व क्षमता का विकास करने तथा देश को लोकतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ बनाए रखने में भरपूर योगदान देने की बात कही। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, पटना संभाग के उपायुक्त श्री अनुराग भटनागर ने समस्त माननीय अतिथियों का स्वागत किया तथा युवा संसद



प्रतियोगिता की आवश्यकता एवं महत्ता आदि पर प्रकाश डाला। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेली रोड के प्राचार्य श्री प्रदुम्न कुमार सिंह ने उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथियों, पदाधिकारियों, शिक्षकों, प्रतिभागियों एवं समस्त कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने माननीय सांसद से सांसद निधि से विद्यालय में ऑडिटोरियम बनाने का

आग्रह भी किया। मौके पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग के सहायक आयुक्त श्री पूर्णेंद्रु मण्डल एवं प्रशासनिक पदाधिकारी श्री भीम कुमार के साथ-साथ केन्द्रीय विद्यालय ए. एफ. एस. बिहटा, सहरसा, नवीनगर एवं जमालपुर के प्राचार्य भी उपस्थित रहे। समस्त कार्यक्रम अत्यंत ही उल्लासमयी वातावरण में संपन्न हुआ।

# प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी ने बीएलओ के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश



**संवाददाता**  
मोहम्मद अरिफ  
सिवान महाराजगंज अनुमंडल दुर्गौडा 23 अगस्त शुक्रवार। प्रखण्ड कार्यालय के सभागार में बीडीओ पूर्व प्रताप सिंह सेगर की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक हुई। जिसमें मतदाता सूची के संशोधन पुनरीक्षण और मतदान केन्द्रों के बुक्तिकरण पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान बीडीओ ने सभी बीएलओ को मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहली जुलाई 2024 के आधार पर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1400 मतदाता ही रहें। इस मानक के अनुसार, अधिक मतदाता होने की

स्थिति में नए मतदान केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। बैठक में मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन, दवा एवं आपूर्ति प्राप्त करना, तथा उनका निरीक्षण करने पर भी चर्चा की गई। बीडीओ ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, संबंधित विधायक और सांसद के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची में आवश्यक संशोधन करने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा जाएगा। बैठक में बीएलओ, दुर्गौडा कुमार, रवींद्र कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, विजय कुमार, सुनील कुमार, आदि उपस्थित थे।

# अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासभा का आयोजन कर अनुसूचित जन जाति में शामिल करने का मांग



**संवाददाता**  
मोहम्मद अरिफ  
सिवान महाराजगंज अनुमंडल दुर्गौडा 23 अगस्त शुक्रवार। अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासभा के तत्वावधान में दारौदा प्रखंड के पश्चिम में मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को धानुक उत्थान महासभा की सभा हुई। इसके पूर्व बलिवानी रामफल मंडल की प्रतिमा स्थल पर दारौदा के रगडगंज मोड़ पर बने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने उनके बलिदान की जीवन वृत्त पर विस्तृत चर्चा किया। रामफल मंडल का जन्म सीतामढ़ी

जिले में हुआ था। वे बचपन से ही साहसी और हिम्मत से भरे थे। वे उन दिनों की बात है जब देश गुलाम था और देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। चारों ओर अंग्रेजों की तूती बोलती थी। अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार चारों तरफ हो रहा था। इस परिस्थिति में भी अंग्रेजी हुकूमत के अत्याच अत्याचार के विरुद्ध समाज के चर्चित तबके धानुक समाज में से एक मुखर व्यक्तित्व निकले वो थे राममना मंडल। 19 अगस्त 1942 को गांधीजी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हुआ। सीतामढ़ी में काफ़ी तेज गति से अंग्रेजी शासन का विरोध

हुआ था। उमेश प्रसाद ने कहा कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सैनिक अवज्ञा आन्दोलन था। बिहार के सीतामढ़ी में शहीद रामफल मंडल के नेतृत्व में यह आन्दोलन उग्र और तेज हो गया। इससे अंग्रेजी हुकूमत डर गयी और आन्दोलन को दबाने के लिए सीतामढ़ी में गोली क्रांति हुआ। जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतों को निशाना बनाया गया। कई लोग अंग्रेजी गोली के शिकार बने। इस घटना के बाद आन्दोलन और उग्र हो गया 24 अगस्त 1942 को बाजपट्टी चौक पर हजारों की संख्या में लोग लाठी चार्ज, धावा, फरसा, गढ़ासा इत्यादि पारंपरिक हथियार के साथ अंग्रेजी पर हमला किया गया था जो अविस्मरणीय था। मिथिलेश कुमार प्रसाद ने कहा कि इसके लिए प्रतिमा स्थल पर साफ सफाई, टाइम्स लगाने आदि का आश्वासन दिया। लोगों की अधिक से अधिक लोगों को बलिदानों रामफल मंडल के जीवन के बारे में जानकारी देने पर चर्चा हुई।

# महज 36 घंटे में सोनपुर के IDB बैंक लूट कांड का सफल उद्भेदन, लूटे गए 09 लाख कैश व हथियार के साथ 05 अपराधकर्मियों को किया गया गिरफ्तार

## वरिष्ठसंवाददाता रोजनामा इंडो गल्फ शकील हूवर

21/08/2024 को समय करीब 12:43 बजे आराढ़ में सारण जिला के सोनपुर थानानर्गत गोला बाजार अवस्थित प्लॉट बैंक सोनपुर में 03 (तीन) अज्ञात नकाबपोश अपराधकर्मियों द्वारा हथियार से लैस होकर बैंक में घुसकर सुरक्षागार्ड से हाथापाई करते हुए आग्नेयास्त्र के बल पर सुरक्षागार्ड से बंधुक्त छिनकर एवं बैंककर्मियों तथा आम ग्राहकों को जान-माल की छिंटि पहुँचाने की धमकी देते हुए बैंक को रापि कूल-17,25,850/ रु. (सत्रह लाख पन्चस हजार आठ सौ पचास रुपए) तथा बैंक में रापि जमा करने आयी ग्राहक श्रीमती पुष्पा सिंह के पास से 2,50,000/रुए कुल रापि-19,75,850/रु. (दुनीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रुपए) लूट लेने की घटना कारित की गई थी। लूट की गई घटना की गट्टी में



नोटसलीप लगा हुआ था। इस घंटे घटना के संबंध में प्लॉट बैंक शाखा प्रबंधक, सोनपुर शाखा द्वारा दिए गए टीकैट आवेदन के आधार पर सोनपुर थाना कांड सं-0-712/24, दिनांक-21/08/24, घाय-111/309(4) ठेके अंकित किया गया था। सारण जिला पुलिस के द्वारा इस घटना का सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त निर्मांकित अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया एवं निर्मांकित

वस्तुओं को बरामद/जप्त किया गया- ? गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता:- 1. रमेश चौधरी, उम्र-27 वर्ष, पी०-व्य० बैरव चौधरी, सा०-डुमरा, थाना-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी, वर्तमान पता-ग्राम-महलेजा शाहपुर, अल्मोटी टोला, सोनपुर, सारण को कांड में लूटे गए 100,000 (एक लाख रुपए) के साथ। ( अपराधिक ज्ञातहास- श्याम कांड में जेल जा चुका है।)

2. देवानन्द राय, उम्र-26 वर्ष, पी०-कृष्ण गोपाल राय, सा०-जहांगीरपुर वार्ड नं०-1 (भिन्नीकोटोला मोड़ बाईपास), थाना-सोनपुर, जिला-सारण को कांड में लूटे गये कुल 8,31,200 (आठ लाख एकतीस हजार दो सौ रुपए) के साथ। ( अपराधिक ज्ञातहास- सोनपुर थाना कांड सं-0-229/21 सौ हत्या कांड में आरोपी। )

3. शौरज कुमार, उम्र-24 वर्ष, पी०-व्य० मनोज कुमार ग्राम-जहांगीरपुर वार्ड नं०-01 थाना सोनपुर जिला सारण को घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र पिस्टल एवं 02 जिन्दा कारतूस के साथ 4. चुन्नु कुमार उम्र 18 वर्ष पिता-हेरेंद्र राय सा०-ग्राम-जहांगीरपुर वार्ड नं०-01 थाना सोनपुर जिला सारण को घटना में अपराधकर्मियों द्वारा उपयोग किये गये आग्नेयास्त्र एवं कारतूस को छुपाने में सहयोग करने के आरोप में। 5. गोलू कुमार उम्र 18 वर्ष पिता-विजय कुमार सा०-गंगाजल टोला थाना-सोनपुर जिला सारण को घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र एक दिपी पिस्टल एवं 02 जिन्दा कारतूस बरामद होने के आरोप में। 6. बरामद सामान:- 1. लूटी गई कुल रापि 09,31,200/रुए 2. कुल 02 दिपी लोडेड पिस्टल मोजेजिन सहित।

# भाजपा जन जन की पार्टी- जनार्दन सिंह सिग्गीवाल, हट घर में भाजपा का सदस्य बनना है- जनक सिंह,

**वरिष्ठसंवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
■ सभी बुढ़ी तक भाजपा के सदस्य बनाना है - ओम प्रकाश भुवन,  
■ एक करोड़ ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य - संतोष रंजन,  
■ सारण जिले में सबसे ज्यादा सदस्य बनने - रणजीत कुमार सिंह,



अज भाजपा जनता पार्टी के जन्म के मुख्य कारणांश पर भाजपा सदस्यता अभियान 2024 कार्यक्रम का अखिल भारतीय नया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्गीवाल ने कहा कि छार जिले से सबसे ज्यादा सदस्य जुड़े भाजपा में जुड़े जाइये बीजेपी जन जन की पार्टी है वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इस

पार्टी में सबसे ज्यादा सदस्य विरम में सतरा दल के मुख्य सचिव तथा के विधायक जनक सिंह ने कहा कि हर घर में भाजपा का सदस्य बनना है और भाजपा को सशक्त एवं मजबूत बनाना है भाजपा में सदस्यता अभियान की प्रचार अभियान चलाए जाने का आह्वान करते हुए

अध्यक्षता कर रहे है जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि वह विश्वास दिलाने हैं कि प्रतिभागियों को सशक्त बनाने का आह्वान करते हुए भाजपा के सदस्य बनने कार्यक्रम को मजबूत करने का आह्वान करते हुए भाजपा में सदस्यता अभियान की कार्यशाला का आयोजन कर लेना है कार्यशाला की

गुना, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक विनय कुमार सिंह, पूर्व विधायक जनार्दन सिग्गीवाल, किसान मेची के प्रभारी एवं उपाध्यक्ष कुंज कुमार स्म, जिला प्रभारी अनुर श्रीवास्तव, पूर्व प्रचारार्थी डॉक्टर धर्मेश कुमार सिंह, राष्ट्रीय परिषद सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, बंसीधर तिवारी, वेद प्रकाश ज्ञानेश्वर, रमेश प्रसाद, मेहर लक्ष्मी नारायण गुना, जिला परिषद की उपाध्यक्ष प्रिंका सिंह, सुप्रभा तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष सिवान के प्रभारी लाल बाबू कुशवाह, महामंत्री विक्रम कुमार सिंह, धर्मेश कुमार साह, शत्रुघ्न पन्त, अनु सिंह, रामशंकर शांडिल्य, मनोज सिंघे, सलवंत सिंह, कुंज कुमार सिंह, रंजन बाबू, कर्णवीर सिंह, मोडिया प्रभारी संजय सिंह, जयजय फेजान, सुनील कुमार सिंह, सहित पूरे जिले के मंडल अध्यक्ष महामंत्री प्रभारी चंडू संख्य में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी सहित वरिष्ठ नेता गण उपस्थित थे।

# जब समस्तीपुर में अचानक चलती ट्रेन से यात्री कूदने लगे

**संवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
मोहम्मद जुवेर  
समस्तीपुर में अचानक चलती ट्रेन से यात्री कूदने लगे। मौके पर आफरातफरी का माहौल कायम हो गया। यात्री एक के बाद एक ट्रेन में कूदने लगे इस दौरान कई यात्रियों को चोट लगी। लेकिन हद तो तब हुई जब इतना सब होने के बाद भी स्टेशन मास्टर के कार्यों में जू नहीं रंगा और वो घटना का हाल लेने भी नहीं आए। हर असल, मामला समस्तीपुर-रोमड़ा रेलखंड के अंगारघाट रेलवे स्टेशन का है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। जानकारी अनुसार समस्तीपुर से सहरसा जा रही सवारी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही उसमें सवार यात्री जैसे जैसे मांगकर ट्रेन से



बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन में किसी ने आग लगने की अफवाह उड़ा दी थी। जिससे सभी यात्रियों में हड़कण मच गया और वो जैसे जैसे ट्रेन से कूद कर बाहर निकलने लगे। घटना को लेकर आसपास के दुकानदारों ने बताया कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी लोग सभी बांगी

से यात्री कूदने लगे। जिसे देख आसपास के लोग पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि ट्रेन में आग लगने की बात सुन सभी कूद रहे थे। लेकिन ट्रेन के किसी भी बांगी से आग उठ रहा था और न बुआ। इसके बाद लोग स्थिर हुए। स्टेशन पर मौजूद वैटनों ने खुद से चेक किया। कहीं आग नहीं होने पर घबराए यात्री शांत हुए।

# डॉक्टर मोमिता देवनाथ की बलात्कार और निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्र सेवा मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल बाबू सिंह के नेतृत्व में संग्रामपुर में कैडल मार्च निकला

**संवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
कफील एकबाल  
संग्रामपुर 23 अगस्त संग्रामपुर के रामपुरवा में राष्ट्र सेवा मिशन के प्रखंड अध्यक्ष सोनु सिंह भानु प्रताप सिंह उर्फ सतीश सिंह के संयोजन में देश का चर्चित डॉक्टर मोमिता देवनाथ बलात्कार एवं निर्मम हत्या कांड के खिलाफ मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल बाबू सिंह के नेतृत्व में भव्य कैडल मार्च निकाला गया। कैडल मार्च रामपुरवा माई स्थान से खजुरिया चौक तक गया जहां वह सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए नेतृत्व करता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल बाबू सिंह ने कहा कि मोमिता की हत्या पूरे राष्ट्र



के लिए शर्म की बात है। लक्ष्मी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार तत्पर है। बावजूद इस तरह की घटनाए घट रही है जो प्रशासन के लिए शर्म की बात है। उन्होंने सरकार से मांग की कि डॉक्टर मोमिता के हत्यारों को आर्थिक

गिरफ्तारी हो तथा उसपर स्पॉट ट्रायल मुकदमा चलाकर फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए ताकि देश में इस तरह के वादात करने वाले सबको साथ साथ हमारी मां-बहन सुरक्षित रहे। प्रखंड अध्यक्ष सोनु सिंह ने कहा कि डॉक्टर मोमिता

हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए कम होगी। जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि आराधियों अभी बेलगाम हो चुके हैं और इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने भी अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। कैडल मार्च में लोगों में आक्रोश देखा गया। कैडल मार्च में भाग लेने वालों में दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक रुबी सिंह, चंदा देवी, दीनानाथ सिंह, जितेंद्र तिवारी, ऋषिकेश सिंह, ललन कुमार, राजकुमार महतो, अनिल कुमार, धीरज राम, मनोरंजन राय, आदि मुख्य रूप से शामिल थे। लाल बाबू सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्र सेवा मिशन स्थानीय कार्यालय मांथवा जौरत मोतीहारी

# विशिष्ट शिक्षको से डीआरसीसी सिवान मे काउंसलिंग मे सर्टिफिकेट मे नाम मिसमैच पर अवैध वशुली

**संवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
मोहम्मद अरिफ  
सिवान 23 अगस्त शुक्रवार। बिहार में नियोजित शिक्षकों को सरकार ने राजकमी बना कर विशिष्ट शिक्षक का तो दर्जा दे दिया। जिसका काउंसलिंग बिहार के सभी जिलों के डीआरसीसी में एक अगस्त से चल रहा है लेकिन राज्य कर्मों बनने के लिए जितना कष्ट शिक्षकों नहीं झेलना पड़ा उस से अधिक काउंसलिंग में कष्ट झेलना पड़ रहा है। विशिष्ट शिक्षकों को काउंसलिंग में स्वयं के या पिता, माता, के नाम में या श्री, श्री मती, स्वर्गीय या मिस्टर, मिसेज या एक भी वार्ड सौलिंग आवेदन से अलग होने पर अवैध वशुली के लिए मिसमैच कर दिया जा रहा है। जिन इसका समाधान शिक्षक पुष्ट रहे है तो जवाब मिला रहा है कुछ



खर्चा काँजिए। इंडो गल्फ राष्ट्रीय समाचार के संवाददाता डीआरसीसी सिवान पहुंचे तो कई शिक्षक नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि हम लोगो के सर्टिफिकेट में, और ९ से नाम था या नाम के पहले श्री, स्वर्गीय होने पर

मिसमैच कर दिया गया था लेकिन हम ने दो हजार खर्चा के नाम पर दे दिया तो मुझे फाउंड कोर्ट कर दिया। वही एक शिक्षक बताया की है हमने खर्चा के बात का विरोधा भागी आवाज में बोले तो मुझे डाउडफुल कर दिया गया। ये खेल डीआरसीसी सिवान में काउंसलिंग हेतु प्रातिनिधिक कर्मियों का है जहां शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को नजर बंद कर वे अवैध वशुली की जा रही है।



# भाजपा ने अमर शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस पर किया कार्यक्रम, दिग्गज नेताओं, कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

विशेष संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ

● पिछड़े वर्ग का सम्मान अमर शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस पर किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान

● बिहार में गरीबों के लिए 13 लाख मकानों का निर्माण होगा। शिवराज सिंह चौहान

● भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि सुधार और राजस्व मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने अमर शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिए जाने की घोषणा की।

● केंद्र और बिहार सरकार को समाज के सभी वर्गों की चिंता : सप्रत चौधरी

● कांग्रेस की चाल के कारण कई शहीदों की शहादत को सम्मान नहीं मिल सका : विजय सिन्हा

पटना, 23 अगस्त। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने आज पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम



किसानों के साथ संवाद

का नया अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। विरोधी दल इन पिछड़े वर्गों की बात नहीं करते हैं। पिछड़े वर्गों का सम्मान क्यों नहीं दिया? इनकी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। मोदी जी को सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। नोट जैसी परीक्षा में 27 प्रतिशत का आरक्षण अतिपिछड़ों को मोदी सरकार ने दिया है। शिवराज सिंह

प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा ओबीसी मोर्चा को द्वारा रामफल मंडल के शहादत दिवस पर ऐसा कार्यक्रम एक प्रकार से उनके प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदैव पिछड़े वर्गों को सम्मान देती है। डॉ जायसवाल ने इस दौरान अमर शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा देने की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें राजकीय सम्मान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री होने के नाते मैं जल्द इसकी सचिका मंगाकर यह काम कर दूंगा। भाजपा अध्यक्ष डॉ जायसवाल ने रामफल मंडल के जीवन की चर्चा करते हुए कहा शहीद रामफल मंडल ने कहा था कि भारत की आजादी में मुझे फांसी भी मंजूर है। आप लोग मेरे परिवार को देखते रहिएगा। बाद में यह सच साबित हुआ और अखिल भारतीय सरकार ने उन्हें फांसी पर सजा दी। वो युवा अवस्था में ही इंसते-इंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सप्रत चौधरी ने कहा कि रामफल मंडल के नाम से

अग्रियों के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने रामफल मंडल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा इसे कोई नहीं रोक सकता। वे देश के लिए शहीद हुए थे इसे कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो समाज के सभी वर्गों की चिंता करती है। भाजपा ने सबको साथ लाने का प्रयास किया।

उप मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने जोर देकर कहा कि भाजपा ने पिछड़ों को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में अगर सबसे अधिक ओबीसी के लोग मंत्रिमण्डल में शामिल हुए तो वह नरेंद्र मोदी जी को सरकार में थे।

उन्होंने कहा कि रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलाएँ। जिस तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हुआ, उसी तरह रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलाएँ। मुख्तियारी नतीश कुमार से मिलकर उनको शहीद का दर्जा दिलावाएँ। उन्हें शहीद का दर्जा और राजकीय सम्मान दिलाया जायेगा।

## बीफ न्यूज

### आगामी सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन हेतु शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में परीक्षा के संबंध में वीफिंग की गई

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ,  
मोहम्मद जुबैर

आगामी सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन हेतु शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में परीक्षा के संबंध में वीफिंग की गई। केंद्रीय चयन परिषद (सिपाही भर्ती) के अंतर्गत बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में 'सिपाही पद' के रिक्त पदों के लिए दिनांक 25.08.2024 एवं 28.08.2024 को समस्तीपुर जिले में कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाना है। बैठक में सर्वप्रथम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के द्वारा आगामी परीक्षा के संदर्भ में सभी आवश्यक जानकारी एवं अधिकारियों से साझा की गई। परीक्षा की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दिनांक 25 अगस्त को 7,162 तथा 28 अगस्त को 7,105 अभ्यर्थियों को जिले में परीक्षा में भाग लेना है जिसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सभी केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दे दी गई है, सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर और सीसीटीवी कैमरे की जांच भी कर ली गई है तथा सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है, इसके अलावा केंद्रों पर परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई है। सभी केंद्र अधीक्षकों को वॉरिंग और विजली की समस्या के लिए पहले से तैयार रहने का विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के क्रम में अपर समाहर्ता (आपदा) ने अपनी बात रखते हुए सर्वप्रथम पहले चार परीक्षाओं के सफल आयोजन हेतु सभी अधिकारियों को बधाई। अपर समाहर्ता (आपदा) ने सभी केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए, इसके अलावा सभी केंद्र अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि सीसीटीवी कैमरों के समुचित संचालन के अलावा परीक्षा परिसर में सभी सीसीटीवी की केंद्रीकृत निगरानी संबंधित व्यक्ति द्वारा लगातार की जाए। इसी प्रकार परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए पेपजल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। इसी प्रकार विभिन्न पदाधिकारियों ने परीक्षा के सफल आयोजन हेतु अपनी बात रखी और कई सुझाव दिए। बैठक में बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (आपदा), जिला अर्थात् पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी केंद्र अधीक्षक मौजूद थे।

## डिप्टी कमिश्नर को भतीजी से लव मैरिज करना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ

बिहार के बेगूसराय नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार को अपनी भतीजी से हो शारीर रचना महंगा पड़ गया। दोनों का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार हस्तगत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर को निलंबित कर दिया गया। उनपर बिना किसी सूचना के फटार होने और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। निलंबन अर्थात् उन्हें कार्टरहार में रिपोर्ट करने को कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेगूसराय नगर निगम में उप आयुक्त के पद पर तैनात शिव शक्ति कुमार मूलरूप से वैशाली जिले के रहने वाले हैं। पिछले दिनों वे अपने घर गए थे। 12 अगस्त को वे वापस बेगूसराय लौटे। बताया जा रहा है कि उस दिन एक लड़की उनसे मिलने नगर निगम कार्यालय में आई थीं। उसी दिन से दोनों गायब हो गए। बताया जा रहा है कि लड़की का नाम सजल सिंघु है और वह शिव शक्ति के गांव की ही रहने वाली है। शिव शक्ति की रिश्ते में वह भतीजी लगती है। सजल के परिजन उसकी तलाश में बेगूसराय पहुंचे और नगर निगम कार्यालय में पूछताछ की। तब उन्हें दोनों के फटार होने की बात पता चली। परिजन ने नगर निगम के कमिश्नर सत्येंद्र प्रसाद और मेयर गिंको देवी से इसकी शिकायत की। कमिश्नर ने इसकी जांच के लिए टीम बनाई। दूसरी ओर, लड़की के परिजन ने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ वैशाली जिले में अपहरण का केस भी दर्ज करा दिया। इसी बीच 14 अगस्त को निलंबित डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार और उनकी भतीजी का एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें लड़की ने अपने परिजन के दबाव को झुठा कर दिया। साथ ही कहा कि वह शिव शक्ति से प्रेम करती है और अपनी भतीजी से दोनों ने खर्चाइया के कार्यालय में मंदिर में शादी कर ली है। सजल सिंघु का कहना है कि बिना सूचना में पढ़ाई के दौरान उसकी शिव शक्ति से दोस्ती हुई थी। बीते 10 सालों से वे रिश्ते में हैं।

## अरविन्द कुमार वर्मा ने जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में परिवारियों की शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ  
अबु बकर

मधुवनी 23 अगस्त 2024-जिलाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले भर से आए परिवारियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के माँके पर जिलाधिकारी सभी परिवारियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज कुल 83 परिवारों की शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। विषयों प्रखंड



निवासी छोटे टाकुर द्वारा गणतंत्र से खास गैर मेजरवा जमीन दाखिल खरीज करने से संबंधित आवेदन दिया गया। राज नगर प्रखंड निवासी लाल दास द्वारा विद्युत आपूर्ति में अनियमितता बरतने से संबंधित शिकायत की गयी है। जयनगर प्रखंड निवासी राजलाल सदाई द्वारा कम्पला नदी जयनगर में उनका लड़का डूब जाने से मृत्यु हो जाने के कारण सरकार द्वारा दिए जाने वाले सरकारी लाभ से वंचित होने से संबंधित आवेदन दिया है। ग्राम पंचायत तुलपारगंज निवासी दिनेश प्रसाद गुप्ता द्वारा आवेदन दिया गया कि एक व्यक्ति द्वारा रास्ता रोक कर मारपीट गाली गलौज एवं सोने के आभूषण छीन लेने से संबंधित शिकायत किया जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी

## अग्नि पीड़ित परिवार को सीओ ने दिया आपदा सहायता राशि

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ,  
गुठनी/सोवान-प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल कार्यालय में शुक्रवार को सीओ डॉ विकास कुमार ने गुठनी के बलुआ गांव निवासी अग्नि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से अंचल नजीर राजीव कुमार, प्रधान सहायक अशोक कुमार एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक मिथिलेश कुमार की उपस्थिति में 12000 रूपए का चेक प्रदान किया। बताया चले कि 3 अगस्त को बलुआ गांव के शर्मा यादव के घर में अचानक

## खेलो इंडिया विमेंस लीग में भाग लेने जिला टीम रवाना

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ,  
कफ़ील एकबाल

● साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के देखरेख में पटना में आयोजित होगी दो दिवसीय (24-25 अगस्त) लीग

● पूर्वी चम्पारण जिला साइकिलिंग संघ के 15 खिलाड़ियों का दल पटना के लिए रवाना। तीन कैटेगरी में होगी प्रतियोगिता

मौतहारी 23 अगस्त साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के देखरेख में पटना में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया विमेंस इंटर जेन लीग में भाग लेने जिला साइकिलिंग संघ की टीम शुक्रवार को रवाना हो गई। पटना के गंगा पथ पर आयोजित होने वाली दो दिवसीय (24-25 अगस्त) लीग में जिला टीम से अलग-अलग कैटेगरी में 15 खिलाड़ी अपनी खेल



प्रतिभा दिखारणी\* इन खिलाड़ियों में सोनियर वर्ग में बेबी, मुन्ना, श्वेता व सुमन, जूनियर वर्ग में अग्रो व प्रियांशु, सब जूनियर वर्ग में सीता, सिद्धा, शालिनी, अर्चिका, अनुष्ठी, साधो, रिशा व रजना शामिल हैं। टीम कोच के रूप में जिला साइकिलिंग संघ के संचालक मिथ्या वर्मा व मैनेजर के रूप में संघ के संयुक्त सचिव अशोक मेहरा हैं। संघ के संचालक मिथ्या वर्मा ने बताया कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान होती है जिन्हें आगे बढ़ने का शानदार अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया इंटर जेन में बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश शामिल हैं जहाँ के खिलाड़ी लोग में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने कहा कि पूर्व में बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में हुए खेलो इंडिया लीग में पूर्वी चम्पारण को कई खिलाड़ी विनर हुए हैं।

## अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार के अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा को लेकर बैठक की गई

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ,  
मोहम्मद जुबैर

आज दिनांक - 23-08-2024 को अनुमंडल कार्यालय में अनुभवण समिति की बैठक की गयी जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार के द्वारा किया गया। इस बैठक में प्रखंड आर्गुमेंट पदाधिकारी एवं अनुमंडल अन्तर्गत सभी जन प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित सभी समस्याओं पर चर्चा की गयी। आपदिन खाद्य सुरक्षा को लेकर शिकायत प्राप्त हो रहा था इसे देखते हुए तमाम जनप्रतिनिधि समेत अधिकारी मौजूद थे।

उर्दू भाषा कोषांग के तत्वाधान में आज शनिवार 24 अगस्त को वाद-विवाद प्रतियोगिता का होगा आयोजन -सभी तैयारियां पूर्ण

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ,  
मोहम्मद जुबैर

जिला उर्दू भाषा कोषांग के तत्वाधान में कल 24 अगस्त, शनिवार को डॉ.आर.डी.ए.सभाघर में उर्दू वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, साथ ही पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार (विशेष अतिथि) के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।

## जनता के दरबार में दरभंगा के डीएम ने किया कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ  
अबु बकर

दरभंगा :-जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आज जनता के दरबार में 50 से अधिक मामलों को सुनवाई किया और एक दर्जन से अधिक मामलों का निवारण भी\*। जिलाधिकारी दरभंगा अपने कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में परिवारियों से पत्रों मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निवारण करने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए अधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों को निवारण में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। \*उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 1:00 बजे अपराह्न से आए हुए परिवारियों की शिकायतों को बड़े धैर्य के साथ सुने



वर्षों से कच्चा मकान बनाकर रह रहे हैं। अंचलाधिकारी बहादुरपुर ने डी एम को जांच प्रतिवेदन दिया कि वह सड़क अब राष्ट्रीय उच्च पद को समस्तीपुर को हस्तांतरित किया

किया जा चुका है, जिसको अब अतिक्रमण वाद को कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी बहादुरपुर को सख्त निर्देश दिए कि विभागीय निर्देश के आलोक में उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें और अपने कार्यकलाप में अपांक्षित सुधार लाये। लक्ष्मण प्रसाद निराला ग्राम पंचायत डौहालाही प्रखंड

हनुमान नगर ने परिवार पत्र दावर किया कि मार्केटिंग ऑफिसर हनुमान नगर हम लोग से असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं और घमको देते हैं उन्होंने उनके कार्य कलाप की जांच करने के लिए जिलाधिकारी को आवेदन दिया, जिसे एसडीओ दरभंगा सदर को जांच करने के लिए अधिकृत किया गया। जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, राजस्व विभाग एवं आदि के मामलों का निष्पादन किया। मामलों को शीघ्र निवारण के लिए अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी बालेवर प्रसाद, भूमि सुधार उपसमाहर्ता विराल एवं बेनीपुर, उप निदेशक जन-संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, डॉ.आर.डी.ए. निदेशक एवं अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

## दरभंगा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर हुई त्रैमासिक बैठक

संवाददाता  
रोजनामा इंडो गल्फ,  
मोहम्मद जुबैर

दरभंगा :- --- जिला पदाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 नियम- 1995 के अन्तर्गत गौतम जिला स्तरीय सर्वेक्षा एवं अनुसूचित समिति की बैठक आयोजित की गयी। आज बैठक में 49 वार्डों के 69 पीडित प्रभुतान की गई यौग्य भी - 32 लाख 71 हजार 350 रुपये तथा 13 (तेरह) पेंशनर के पेंशन भुगतान पर मो. - 02 लाख 46 हजार रुपये मात्र की घटनेतर स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वित्तिय वर्ष 2024-25 में 135 लाख रुपये प्राप्त हुआ है, जिसमें 68.79 लाख रुपये भुगतान की गई है। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक शुभम कुमार आर्य, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), कुमार प्रशांत, उप निदेशक जन-संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार, विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर, मानवीय सहायक विजय पासवान, अमर राम, सुभाष महतो, विकास कुमार, थानाध्यक्ष, एस.सी./एस.टी.थाना एवं अन्य उपस्थित थे।



# गर्दन तक पानी में लोग डूब रहे घर का सामान बांध टूटा 10 हजार लोग प्रभावित

बोले-चूड़ा खाकर रह रहे, राहत कैंप में होती मुर्गा पार्टी

भागलपुर। के नवगठित में 10 किलोमीटर लंबे बांध का 200 फीट हिस्सा गंगा नदी की तेज बहाव में बह गया। इससे 6 गांवों के करीब 2 हजार परिवार और 10 हजार लोग प्रभावित हैं। स्थिति यह है कि 10 हजार लोग भूखे-प्यासे पानी के बीच दिन-रात गुजराने को मजबूर हैं। मंगलवार को 200 फीट का हिस्सा बहने के बाद बुधवार को जिला प्रशासन की टीम पहुंची। बांध को निपट करने का काम शुरू है। भारक की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो हमें नीतू देवो मिलीं। वो कहती हैं कि 'सोमवार को बांध को राखी बांधने सिविलियापुर गांव गई थी। मंगलवार को सूचना मिली कि बांध टूट गया है। घर में पानी घुस गया है। भागी-भागी लौटी तो पूस का घर बह गया था। 2 दिन से चूड़ा-



दालमोट, चूड़ा-पीनी खाकर गुजारा कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। हमारे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है। नेता लोगों को जय जरूरत होगी है, अब बोट मांगने आते हैं। अभी कोई नहीं आया। हम लोगों को

सरकार की ओर से खाने के लिए कुछ मिलाया चाहिए। दीप नागरण यादव कहते हैं कि 'अबो घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। पानी बहने पर बांध में धीरे-धीरे कटन शुरू हुआ और फिर 200 फीट टूट गया। बांध टूटने की वजह से हमारे घर में 4 फीट पानी है। उन्होंने विभागीय सापरवाही बचते हुए कहा कि विधान सचल रहती तो बांध नहीं टूटता। गंगा की महिमा है। जब चाहेगा, जहां चाहेगी, वहां काट देगा। हमारे 3 बेटे हैं। पहले सब साथ में रहते थे। बांध की वजह से सब लोग इतर-उधर रह रहे हैं। स्थिति यह है कि ना खाने का कोई सामान है और ना बचाने का कोई उपाय। आगे बहने से पहले बसा दें कि 200S में विस्थापित हुए वो लोग हैं, जिन्हें सरकार ने बांध के आसपास की जमीन का पर्चा दिया था। इनको संस्था कुल विस्थापितों की 20% है। हालांकि यह लोग सरकार को दी गई जमीन पर इसलिए नहीं बसे, क्योंकि वो घर बचाने लायक नहीं थे। सभी ने बांध पर ही पूस के घर बनकर रहना शुरू कर दिया। अब एक बार फिर इनके घर बांध के कटाव की वजह से बह गए हैं। 200S में इस बांध को बनाने में सरकार ने 44 करोड़ रुपये खर्च किए थे। पिछले साल ही 2 करोड़ रुपये

कटावरोधी कार्य हुआ था। इस साल भी 15 करोड़ के फंड से काम चल ही रहा था कि बांध टूट गया। प्रशासन को और से राहत कैंप भी स्थापित गया है। लेकिन राहत कैंप में अधिकारियों का उठना-बैठना है। जला संसाधन विभाग के कर्मियों के लिए यहां खाना बन रहा है। बांध पर ही रह रही सरोजिनी देवी कहती हैं कि 'सरकार को हमें जो सुविधाएं देनी चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। इस बार जो लोग बोट मांगने आएंगे तो उन्हें झाड़ू से मारेंगे। आगे बताने हैं कि यहां पर जिला प्रशासन ने राहत कैंप खोला है। लेकिन उसमें पुलिस और टीम के लोग मुर्गा पार्टी करते हैं। अब उनकी बात जो फर्दें घर पानी में खोने रहे घर के सामान इसी बांध के पास बाइल कुमार मिले।

## संक्षिप्त डायरी

### 30 लाख की ज्वेलरी के लिए मर्डर, नकली सोना छोड़ा



पटना। सिविल कोर्ट में वकील रामगण प्रसाद के बेटे रवि कुमार की हत्या दो किराएदारों ने 30 लाख के गहने लूटने के लिए की थी। लूट के बाद उसके ही घर में गला खाकर हत्या की थी। हत्या करने के बाद सख्य मिश्रा ने लिए रवि के गले पर थियर और शरीर पर पेंट डाल दिया, ताकि शक पैदा हो सके। गला रखने का निशान भी मिट जाय। बुद्धा कॉलोनी धाना इलाके में दुजरा स्थित गेट नंबर 16 के सामने रवि के मकान में पेंट का काम चल रहा था। इसी मकान में रवि की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में रवि के घर के पीछे वाले मकान में किराएदार शिवम सराफ उर्फ गोलू और यश राज को सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया, जबकि गोलू के पिता कलाराम को उसके ससुराल आरा से धर दबोचा। आरोपियों ने चोरी की कुछ ज्वेलरी को गला कर बेचा था। उससे अर्धफोन खरीदा। आरोपियों ने पेंट से कैमरा खराब हो जाएगा, इसका बहाना कर सीसीटीवी के तार हटवा दिए थे। बलराम को हत्या और लूट की जानकारी थी। बलराम ने ही कुछ सोने को गल्ला और बाकरगंज में बेच दिया था। बाकी सोना साथ लेकर आग चला गया। गोलू के पास से पुलिस ने 17 बर गला हुआ सोना, 124 ग्राम चांदी और 6 मोबाइल बरामद किया है। इनमें 1.50 लाख का एक अर्धफोन है। इसे लूट गए गहने की रकम से गला कर खरीदा था। गोलू और यश को पहचानता था डॉंगी, इसलिए नहीं भौका घटना के बाद गहने को बिक्री से 2 लाख 70 हजार रुपये गोलू ने लिए, जबकि 83 हजार यश को शेर मिला। गोलू सुनार है, जबकि यश किराए पर गाड़ी चलाता है। रवि के फोन में गोलू और यश आते थे, इसलिए घटना की रात डॉंगी नहीं भौका था। मिठी एसओ सेंट्रल चंद्रप्रकाश ने बताया कि 'ये पुलिस के लिए ज्यादा कैस था। जांच और सख्य जुटाने के बाद पुलिस ने गोलू को गिरफ्तार कर लिया। गोलू को सीटीटीवी ट्रैक करवाकर खता हिलाई जायगी।

### आरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत 100 की स्पीड से रेलिंग से टकराई कार



आरा। में गुरुवार (22 अगस्त) को सुबह सड़क हादसे में एक ही परिवार को 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में पति, पत्नी, बेटा, बच्चा और पोते की मौत हुई है। हादसे के बाद 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 25 साल की बच्चा और 4 साल की पोती को इलाज की भी राहत नहीं मिली। आरा सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एवरवेग खुलने के बाद भी ड्राइव कर रहे विपुल और प्रंट सीट पर बेटे भूप नारायण की मौत हो गई। गजराज गंज ओपी धाना क्षेत्र के चौकीगंज बांध के पास आग-बखर फोर लेन पर चढ़ने समय कार (टैग नंबर 300) पुल की रेलिंग से टकरा गई। बखराब जग रहा है कि गाड़ी की रफ्तार 100 से ज्यादा थी। पूरा परिवार विंचाचल से पूजा कर के लौट रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गजराजगंज ओपी इंचांच हरी प्रसाद शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने सभी को एक्जेंस से अस्पताल भिजवाया। इसके बाद परिवार को सूचना दी गई। भूप नारायण पाठक पिछले 15 सालों से पूरे परिवार के साथ पटना के छतर मोड़ के पास अर्पणा कॉलोनी में रहते थे। पिता और बेटा दोनों पूजा कराते थे। राफर के रुतने वाले संजोव ओझा हादसे के वक्त मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 'बिचिचा को ओर से वो लोग आग आ रहे थे। अचानक गाड़ी की स्पीड अधिक होने से बेकव्यू होकर पुल के डिवाइडर से टकरा गई। हमने तुरंत अपनी बाइक रोकी और रास्ते से जा रहे ग्रामीणों की मदद से पहले सभी को एक-एक कर निकला। जो जिंदा थे, उन्हें पहले सदर अस्पताल भेजा। दो लोगों की हल्की सारें चल रही थी। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी भी मौत हो गई। गाड़ी के अंदर एवर वेग खुलने के बाद भी आगे बेटे पिता-बेटा की जान चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड लगभग 110 से ज्यादा थी। जैसे ही गाड़ी पुल पर चढ़ी, तभी हल्का जंप किया और डिवाइडर से टकरा गई।

### 48 एकड़ में फैला मुक्तापुर मोईन में बनेगा इको पार्क



दरभंगा। मुख्य पंच स्थित मुक्तापुर मोईन को इको पार्क बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 48 एकड़ जमीन का प्लान तैयार कर ली है। पार्क निर्माण को लेकर कार्य योजना पर्यटन विभाग को भेजी गई है। पर्यटन विभाग की मंजूरी के साथ ही इस दिशा में जिला प्रशासन कार्य शुरू कर देगा इस पर 50 करोड़ से अधिक राशि के खर्च का अनुमान है।

## नदी में डूबने से किशोर की मौत:नालंदा में दूसरे दिन 10 किमी दूर मिला शव



नालंदा। में मंगलवार से लापता एक किशोर का शव बुधवार को बरामद किया गया है। मृतक की पहचान मानपुर धाना क्षेत्र के पत्नी गांव निवासी अबलु कुमार के बेटे गौतम कुमार (12) के रूप में हुई है। नदी में डूबने से इसकी मौत हुई है। शव दूसरे दिन 10km दूर मिला है। रैर फिसलने से हादसा हुआ था। मामला अस्पताल धाना क्षेत्र अंतर्गत जीवर गांव के समीप सकरी नदी का है। रैर शाम परियोजना शव के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की मदद से बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचे। घटना के संबंध में मृतक के भाई रंजन सिंह ने बताया कि मंगलवार को गौतम अपने दोस्त के साथ शौच के लिए नदी किनारे गया था। जहां उसका रैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। इसके बाद से वह लापता हो गया। गांव आकर उसके दोस्त ने घटना की

## जॉब छोड़ पोल्ट्री फॉर्म शुरू किया आमदनी सालाना 14 लाख

बेगूसराय। के अभिषेक ने 2022 में अपनी जमीन पर कंट्रिक्ट पोल्ट्री फॉर्म का काम शुरू किया। जॉब नहीं करने की जिद ने उन्हें बिजनेस के लिए प्रेरित किया। आज वो सालाना 14 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं। साथ ही 4 लोगों को नौकरी भी दी है। अभिषेक अब अगले साल तक प्रोजेक्ट चिकन एगार्ड लगाने की योजना बना रहे हैं। बेगूसराय के हरंख निवासी अभिषेक ने बताया कि '2009 में बेंगलुरु से करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। बेंगलुरु और देहरादून में मर्केटिंग



से जुड़े थे। काम ठोक-ठाक था। हर महीने 20 हजार रुपये पैगोरी मिल रही थी। लेकिन, हमेशा सोचना था, मुझे अपना काम करना है, जहां मैं लोगों को जॉब दे सकूँ। अभिषेक ने कंट्रिक्ट फार्मिंग के बारे में बताया कि 'कुछ कंपनियों दो से

## इस साल ऑनलाइन पिंडदान की फीस 23 हजार

गया। में 17 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है, जो 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। विचार पर्यटन विभाग ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा मुफ्ताने का रहा है। इसको लेकर विभाग की ओर से वैश्वीय शुरु की गई है। एक कार्डेड भी खोल दिया गया है। ऑनलाइन पिंडदान शुरू होने के बाद विदेशों और देश के दूरसे राज्यों के लोग आसानी से पिंडदान कर सकेंगे। हालांकि, इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। पंडा समूह का कहना है कि 'ऑनलाइन बंधक क्रिया ठोक नहीं है। इसके जरूर शास्त्रों को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर सरकार ने 23 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया है।



हजार रुपये निर्धारित किए गए थे। विचार स्टेट ट्रिप्लेक्स देवनागढ़ के अधिकारी सुमन कुमार ने बताया कि 'ऑनलाइन पिंडदान करने वाले लोग को अलग-अलग रूप में आती है। शहर के अनुसार अपने हाथों से पिंडदान करना ठीक माना गया है। ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा शुरू कर शास्त्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, बड़े अधिकारी, बौद्धों के कलाकार खुद गया पहुंचकर पिंडदान करते हैं।' गया शीर्ष पंडा समाज ने कहा कि हमेशा यमार्तियों पर ही चोट कां। ऐसी व्यवस्था सरकार दूसरे धर्मों में क्यों नहीं करती है। सात महीने पहले बौद्धों के स्टार संजय दत्त पिंडदान करने गया के विष्णुपद पहुंचे थे। यहां उन्होंने सितरों का पिंडदान किया था।

## मुसलमानों को साधने के लिए नीतीश का प्लान एम

मदरसा। और वक्फ बोर्ड जमीन को लेकर मुस्लिम समाज की नाराजगी पर सीएम नीतीश कुमार ने प्लान छापमह वैचार किया है। राज्य के लगभग 17 प्रतिशत मतदाताओं को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने नए समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। इसमें उन्हें खुला करने की कोशिश की है, इसके लिए सरकारी योजनाओं पर चर्चा हुई है। बिहार के मद्रासों को लेकर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान में प्रकाशित पुस्तकों से पढ़ाई के साथ कई गंभीर आरोप हैं। इस मुद्दे पर सरकार



खामोश है, इस कारण से मुस्लिम समाज में अज्ञान है। केंद्र सरकार वक्फ संसोधन 2024 लाई, जिसमें

अब नीतीश का समीकरण जांच बुधवार को नीतीश कुमार ने अचानक अपने अजगम पर एक बैठक बुलाई, जिसमें मुस्लिम समाज के कई बड़े नेताओं के साथ एसीएम और जेडयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मंत्रणा किया। बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के कई बड़े नेताओं के साथ-साथ दर्जनों मुस्लिम नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज से उसका हाल चाल जाना। सीएम ने पूछा कि प्रदेश सरकार की फिन योजनाओं का साथ उन्हें मिल रहा है, किन योजनाओं में समस्या आ रही है।

## बंद समर्थकों ने राहगीरों को बुरी तरह पीटा

समस्तीपुर। में भारत बंद समर्थकों ने राहगीरों को डंडे से पिटाई कर दी। जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना में कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। निजो अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंद समर्थकों के हाथ में राइफल है। पिटाई के दौरान एक युवक घायल हो कर मस्जिद पर फिर गया। अन्य को भी चोटें आई हैं। मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन किसी को पकड़ा नहीं गया। घायलों के बाद बंद समर्थक मौके से भाग गए। घटना ताजपुर धाना क्षेत्र के एनएच-28 पर चक गहाड़ जाने वाली सड़क की है।



दरअसल भौम आर्मी और दलित समर्थकों की ओर से ताजपुर में जगह-जगह जुलूस निकाला गया था। इसी दौरान कुछ युवकों से झड़प हो गई। वीडियो के आधार पर एएसपी संजय पांडे ने ताजपुर पुलिस को मारपीट करने वाले युवकों की पहचान कर प्रारंभिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

## तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को रौंदा मौत



किशनगंज। के बहादुरगंज एनएच 327ई मुस्लिम चौक के पास हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, घटना सुबह 5:00 बजे की है। बताया जा रहा है कि युवक सड़क को क्रॉस कर रहा था, इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक युवक को रौंदा दिया। जिसमें युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना के बाद मौके पर बहादुरगंज पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए

## थाना के सामने गन शॉप से राइफल-पिस्टल चुराने की कोशिश

### व्यवसायी के घर से गायब हुई शटर की चाबी सीसीटीवी भी मिला बंद

छपरा। नगर धाना के सामने महज 20 मीटर की दूरी पर भारत गन हाउस में 17 राइफल-पिस्टल चोरी करने की कोशिश हुई है। घटना आज सुबह 5 बजे की है। शॉप के स्टाफ की कोशिश से चोरी सफल नहीं हो सकी। मामले में बड़े खत यह है कि शॉप के मालिक पंकज गुप्ता के घर से पहले चाबों की चोरी हुई। इसके बाद कम से कम 3 चोर सुबह 5 बजे के करीब आराम से शटर का ताला खोलकर दुकान में घुसे थे। घरे में 17 राइफल भरकर निकल रहे थे। इसी दौरान मालिक चौक पर निकला दुकान स्टाफ वहां पहुंच गया। उसने सवाल किया तो सभी चोर घोर सड़क पर ही छोड़कर बगल की



गली से भाग निकले। इसके बाद स्टाफ ने अपने मालिक को घटना की जानकारी दी। पुलिस फिलहाल पूरे घटना की जांच कर रही है। इसमें मालिक पंकज गुप्ता के परिवार के ही लोगों का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आज सुबह की घटना के बाद जब मालिक पंकज गुप्ता ने जांच की तो दुकान

रहे थे। पूछे जाने के बाद सभी मुख्य सड़क पर ही हथियार छोड़कर प्यार हो गए। इसके बाद स्टाफ द्वारा मुझे सूचना दिया गया। घर में बेग में रखे दुकान की चाबी को गायब करके शटर खोला गया है। हालांकि बाद में रजिस्टर मिलान में सारा हथियार पचाव पाया गया है। पंकज गुप्ता शटर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। उनकी गन शॉप छपरा शहर के पुराने दुकानों में से एक है। यहाँ से लोग लाइसेंस राइफल और पिस्टल खरीद सकते हैं। साथ में उनकी दुकान हथियारों के सेफ हाउस का भी काम करती है। घर बंद कर लंबे समय के लिए बाहर जानेवाले लोग इनकी दुकान में अपना हथियार और लाइसेंस जमा कराते हैं।



# सनातन हिंदू संस्कृति सम्मेलन ललिता आश्रम वृंदावन में संपन्न



**मथुरा।** सनातन हिंदू संस्कृति सम्मेलन आज ललिता आश्रम में संपन्न हुआ जिसमें प्रख्यात संत, भगवत आचार्य, एवं हिंदूवादी संगठनों ने भाग लिया सम्मेलन में सभी संगठनों ने एक मत होकर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर रोग प्रकट करते हुए सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की तथा

मुस्लिम बफ कोर्ट की समाप्त कर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की श्री कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष नास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने वेदना प्रकट करते हुए कहा कि आप सनातनी हिंदू एकजुट है, लेकिन बड़े मताभ्योश अपनी सुविधा अनुसार व्याख्या करने में लगे हैं जब किसी साधारण हिंदू पर

प्रशासनिक दमन होता है तब बड़े धर्माचार्य जोसरसर मलत हैं, प्रख्यात भागवत आचार्य देवकीनंदन टाकुर ने कहा कि हमें हिंदू इदय सम्राट नहीं सर्वप्रथम सनातनी हिंदू बनना है, पंडित बिहारी लाल त्रिपाठी ने कहा कि खौर सनातनी हिंदुओं के कोई भी सरकार नहीं चल सकती सरकार की हमें समझ



समय पर सनातन धर्म के प्रति जागृत करना होगा, भागवत आचार्य बलराम जेन कहा कि दिनेश शर्मा समस्त हिंदुओं की जागृत कर श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं हमें उनके साथ देकर न्यायान्वय मंत्रजलुत पक्ष रखना होगा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन अश्वनी शर्मा ने कहा कि

शंकराचार्य का स्थान सर्वोच्च है सरकार ने लेकर धर्म गुरुओं को उनकी जगह आदेशों का पालन करना होगा आचार्य पद रैनु राजानाचार्य कर्मवोगी जो महाराज, हरिदास ब्राह्म, जमुना देवी शर्मा विप्र नेता राजेश पाठक ने कहा कि धर्म की स्थापना में विप्रों का बड़ा योगदान है उनको उपाक्ष कर अखंड हिंदुत्व को साकार

नहीं किया जा सकता, इस अवसर पर प्रमुख रूप से सदानंद महाराज, ज्ञान आचार्य जो महाराज, जयराम शर्मा, महानगर अध्यक्ष टाकुर नरेश सिंह, मणिला जिला अध्यक्ष गुजन शर्मा, राजेश कृष्ण शास्त्री, राहुल गोयल, आकाश शास्त्री, मौनिका भटनागर, संजय हरियाणा, राहुल द्विवेदी, आदि उपस्थित थे।

## संक्षिप्त डायरी

### लूट में वांछित लुटेरों मथुरा पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से तीन अभियुक्त घायल

**मथुरा।** मंगलवार को देर रात फरह पुलिस स्वाट टीम/सर्विलांस टीम को सूचना मिली कि ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश परछम ओल मार्ग से गांव नगला जड़ा की ओर जा रहे हैं। तत्काल मथुरा पुलिस ने बदमाशों की चेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को अपनी तरफ आते देख बदमाशों ने पुलिस और फायरिंग करना शुरू कर दिया जबकी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की। तीनों बदमाशों को गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। एचपी सिटी अरविंद कुमार के द्वारा बताया गया कि पकड़े गए बदमाश वर्जित लालित चेतन मथुरा के हो रहने वाले हैं। तीनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। जिनमें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

### साथियों ने कर दी युवक की पीट पीटकर हत्या

**मथुरा।** थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव जतीपुरा में मारपीट के दौरान 25 वर्षीय करीब विनोद नामक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ थाना गोवर्धन में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव जतीपुरा में गुरुवार को सुबह यह घटना हुई। 25 वर्षीय विनोद पुत्र बन्धु की मौत के बारे में परिजन सतो प्रधान बताया कि गांव में ही एक युवक की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। जिसमें हमारे परिवार का विनोद और करतार भी शामिल हुए थे जो कि राजस्थान के निवासी हैं और कान्हा पुत्र पूरन टाकुर, राजेश एवं एक अन्य व्यक्ति भी इस पार्टी में था। इन लोगों में आपस में किसी बात को लेकर कलहसुनी हो गई थी। घटना के बाद मामले को शांत करा दिया गया था। फिर ये चारों लोग मिलकर करीब रात को एक बजे घर के बाहर सोते हुए विनोद को ले गए और उसके साथ मारपीट की। गंभीर घायल अवस्था में मातु छाया के बाहर छोड़कर भाग गये। जैसे ही परिजनों की जानकारी हुई परिजन घायल हुए विनोद को मथुरा अस्पताल ले गए। अस्पताल से दवा दिलाकर चापस ले आये सुबह उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन विनोद को गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाने के लिए ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों द्वारा पुलिस से दायित्व के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है।

### प्रतिबंधित प्लास्टिक से तैयार चम्मच काटे फैक्ट्री पर छाप

**मथुरा।** फास्ट फूड में उपयोग किया जा रहे खाद्य पदार्थ बेहद हानिकारक हैं। जो से लेकर सास तक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतराक हैं। यह खुर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कई घार कार्यावाही में सक्षिप्त कर चुकी है। इतना ही नहीं चाटमीन, चर्गर जैसे फास्ट फूड में जो चम्मच काटे प्रोडक्ट को लाया कर खाने के लिए दिये जा रहे हैं वह भी बेहद हानिकारक हैं। यह प्रतिबंधित प्लास्टिक से तैयार किये जा रहे हैं और सस्ते में इकतानदारों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। नगर निगम की टीम की ओर से को गट कार्यावाही में गुरुवार को मथुरा में ऐसे ही चम्मच काटे और दूसरे सामान बनाने की एक फैक्ट्री का भंडा फोड हुआ। नगर निगम मथुरा बुन्दान क्षेत्रानर्गत लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को जल कर जमाना बसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। चायजुल इसके इस तरह की प्रतिबंधित प्लास्टिक को उपलब्धता में कोई कमी दर्ज नहीं हो रही है। इसी क्रम में सहायक नगर आयुक्त कल्पना सिंह चौहान के निर्देश में गुरुवार को ईटाईसुपल एरिया में संघालित फैक्ट्री से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने हुए कांटा चम्मच आदि जज किए गए। फैक्ट्री संचालक के पर 50 हजार का जुमाना किया गया है। साथ ही चेराबन्दी भी गई कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के समान का उत्पादन न किया जाए। इस मौके पर राजबहादुर सफाई निरीक्षक, इलवन दल कर्मी, दीपक शर्मा, राम कुमार आदि मौजूद रहे।

### खाद्य सुरक्षा विभाग की तरल नाइट्रोजन का प्रयोग न करने की नसीहत

**मथुरा।** प्रदेश के खाद्य एवं औषधि विभाग के आयुक्त ने कहा है कि अब प्रदेश में रेस्टोरेंट/केटर/भोजन परसेने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा विरुद्ध समारोहों, मेलों आदि में आईसक्रीम, कॉकटेल, मीठा पान, बिक्रिट, मिठाईयों आदि को परसेने समथ मौके पर तरल नाइट्रोजन का प्रयोग प्रतिबंधित है। यदि ऐसा करता पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी देते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा इस प्रकार की प्रतिबंधित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में प्रतिबंधित निगमों का उल्लंघन है। ऐसा किये जाने पर खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी निगमों / विनियमों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही प्रतिबंधित है। उन्होंने जिनो के समान खाद्य कारोबारकर्ता रेस्टोरेंट/केटर/भोजन परसेने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा विरुद्ध समारोहों, मेलों आदि में आईसक्रीम, कॉकटेल, मीठा पान, बिक्रिट, मिठाईयों आदि को परसेने समथ मौके पर तरल नाइट्रोजन का प्रयोग उनके द्वारा न किया जाने का अनुरोध किया है। यदि उनके पदार्थ का प्रयोग करते हुए कोई भी खाद्य कारोवादी पाया जाता है तो उनके खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण रकवाल प्रभाव से निष्क्रिय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी निगमों / विनियमों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

## यूपी के सरकारी कर्मचारियों को बतानी होगी अपनी चल और अचल संपत्ति

### अगर संपत्ति घोषित नहीं की तो नहीं मिलेगा प्रोमोशन

**मथुरा।** उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्गु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं श्री अनुसंधान संस्थान मथुरा में दिनांक 21 अगस्त 2024 को प्गु चिकित्सा महाविद्यालय, देवे साहने महाविद्यालय, जेय प्रोद्योगिकी महाविद्यालय तथा मन्सियकी महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों की कुल 215 खोतों हेतु प्रथम चरण के काउंसिलिंग विश्वविद्यालय के कुलापति प्रोफेसर अनिल कुमार बंसलरव के निदेशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न कर्माई गई। पहले चरण की काउंसिलिंग देर रात तक चलाई गयी। विश्वविद्यालय में पी.वी.एस.सी. एंड ए. एच. की 85, पी. टेक. काउंसिलिंग की 50 तथा इजी खड से प्रारंभ हो रहे, स्नातक डेग



1 से 50 कै तक के, बिक्रिट, विश्वविद्यालय कर्टे तथा अनुसंधान जन्मजाति के समस्त सफल अभ्याथियों को ऑफलाइन काउंसिलिंग हेतु विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की काउंसिलिंग के लिए कुल 289 भारतीयों को बुलाया गया था जिसमें 111 अन्धबलीने ने काउंसिलिंग में प्रतिब कर 72 स्नातक खोतों पर प्रेक्षा लिख विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अरुण कुमार मदन ने बताया कि काउंसिलिंग को प्रक्रिण्ड मेरिट एवं आरक्षण के आधार पर की जा रही है। काउंसिलिंग में प्रेक्षा सार्थि के अन्ध, प्रोफेसर विकस पाठक, अर्पिताश ग्गु चिकित्सा संभव, प्रोफेसर संभव सिंह, अधिप्राक देवे साहने महाविद्यालय, प्रोफेसर अरपी. पंडि, विश्वे सर्वकर्मी मन्सियकी महाविद्यालय, डॉक्टर रजनीश सिंह, प्रभावे छात्र कल्याण, डॉक्टर अनिल सिंह, फीखा निरंकर, डॉ. युजस कदव, डॉ. वीरा गुला व डॉ.अर्चिन ज्ञांा काउंसिलिंग को प्रक्रिण्ड पूर्ण कर्माई गई।

## श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे नूत्यनत्री योगी आदित्यनाथ- 137 पहिद्योजनाओं की देवे सोगात-बैलुन उड़ा कर करेंगे श्रीकृष्ण जन्म मलानलेखन का शुभारंभ



**मथुरा।** इस बार 5.25.15वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव को भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस तीन दिवसीय महा महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मुख्यामंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अगस्त को शम मथुरा पहुंचेंगे। राज नैथ प्रकाश परंदर के सोहंओ स्वाम बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्यामंत्री 25 अगस्त को शाम को टेम्पलर नगर स्थित पंचजन्य प्रेक्षप्रह प्राणण निगालकाय बैलुन आकरा में छोड़कर 5.25.15वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे।

## मंदिर मार्गों पर रहेगी प्रकाश की बेहतर व्यवस्था, नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण

**मथुरा।** मंदिर मार्गों पर रहेगी प्रकाश की बेहतर व्यवस्था रहेगी। इसके लिए नगर आयुक्त शशांक चौधरी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं पर मुख्य मार्गों पर विशेष प्रकाश व्यवस्था एवंमसाली चौगहा, टोन गेट व न्यू बस स्टेंड से मसाली चौगहा पर विशेष प्रकाश व्यवस्था किये जाने के लिए मो. अनकर छायाजा महाप्रबन्धक (जलकल) एवं प्रभारी प्रकाश को निर्देश दिये। नगर आयुक्त द्वारा बुन्दान में टा. बकिबिहागो मन्दिर, प्रेम मन्दिर एवं इस्कॉन मन्दिर की ओर जाने वाली मुख्य मार्गों पर समुचित प्रकाश



व्यवस्था एवं खी फुटा शिवल सेल्से एवं बुन्दान में सफाई, सड़क पांटेरी पर विशेष प्रकाश व्यवस्था मरम्मत, पानो लीकिज, सोनर ओवर

पलंओ एवं पेयजलापूर्ति के लिए चन्द प्रकाश पाठक अपर नगर आयुक्त को नेडल अधिकारी नामित किया गया। साथै बुन्दान जैन कारागार में सभी अधिकारियों के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर को रटिंगा रखते हुए एक चैकक ली गई। निरीक्षण के दौरान सौपी पाठक अपर नगर आयुक्त, अनुज कोलाक सहायक नगर आयुक्त, रामकैलाश अधिप्रासो अधिनयना (जलकल), हेमंत गौतम महायक अधिपंता जलकल, महेश चंद जोनन सेनेटरी ऑफिसर, अरुण कुमार अकर अधिपंता खिविल आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

## लूट में वांछित लुटेरों मथुरा पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से तीन अभियुक्त घायल



**मथुरा।** मंगलवार को देर रात फरह पुलिस स्वाट टीम/सर्विलांस टीम को सूचना मिली कि ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश परछम ओल मार्ग से गांव नगला जड़ा की ओर जा रहे हैं। तत्काल मथुरा पुलिस ने बदमाशों की चेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को अपनी तरफ आते देख बदमाशों ने पुलिस और फायरिंग करना शुरू कर दिया जबकी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की। तीनों बदमाशों को गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। एचपी सिटी अरविंद कुमार के द्वारा बताया गया कि पकड़े गए बदमाश वर्जित लालित चेतन मथुरा के हो रहने वाले हैं। तीनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। जिनमें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

## भारत बंद में हंगामा, आगरा में मुकदमा-दुकानदार के साथ की थी मारपीट, मोबाइल छीना था



ने हाथ से मोबाइल छीन लिया। स्ट्रीन कर ले जाने लगे। फट में पेचकय मारने की कोशिश की गई। साथै दुकानदारों ने अजय जैन को बचाया। मंदिर में जने से रोका आरोप है कि प्रदर्शनकारी गालियां दे रहे थे। वज यह थे कि भारत बंद में दुकान खोलने को हिम्मत कैसे हुई। मंदिर में घुसने को कोशिश करने लगे। बहुत मुश्किल से प्रदर्शनकारियों को मंदिर में घुसने से रोका गया। थाना रकालगज में मुकदमा दर्ज हंगामे का खंडितो चागल होने के बाद दुकानदार अजय जैन के साथ ही जाजर में अन्य दुकान बंद बन्दने के दौरान मारपीट करने के आरोप में थाना नक्षत्रनेज में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस चौथिने के आधार पर प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर रही है।

यथा। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बुधवार को थाना सल्लि कई संगठनों ने अलग अलग रास्तों से कलकट्टे पहुंचकर प्रदर्शन किया था। ऐसी के साथ झंटे लेकर आ रहे प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर दुकानें बंद करने के लिए हुड़दंग किया। इसी दौरान लिगियोलत याजार में अजय जैन को दुकान को बंद करने के लिए जबरदस्ती को यह। अजय जैन का आरोप है कि प्रदर्शनकारों दुकान बंद कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने मोबाइल से चौडिद्यो बचाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों

## होर्डिंग पर फोटो छोटी लगी तो भाजपा विधायक मड़के आगरा में कार्यकर्ता से बोले- मेरे नाम से तुम्हें एलर्जी है



**आगरा।** आगरा में पॉलिटेकल होर्डिंग पर भाजपा विधायक का फोटो छोटी होने से बत भाजपा हो चुरा। विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने खुद मौके पर जाकर होर्डिंग को हटवा दिया। इससे पहले उन्होंने होर्डिंग लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ता को जमकर हड़काया। होर्डिंग हटवाने के दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी चर्हा पहुंचा। उनसे विधायक से पूछ- क्या मैं कार्यकर्ता नहीं हूं? मेरा होर्डिंग क्यों हटवा रहे? जबकि विधायक कहते हैं - खीवियर कौन है? तुम्हारा नहीं

लगेगा। विधायक फोन पर चले - क्या बदमाशी है, मेरा फोटो कहां लगाया गया आगरा में 26 अगस्त को दुर्गा दास राठी की प्रथिमा का लोकार्पण करने सोधम गोरी आदित्यनाथ अर रहे हैं। केंट क्षेत्र के पुरानी मंडी चौक पर जहां उनका कार्यक्रम है। वहां पर भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने होर्डिंग लगा रहे हैं। एक कार्यकर्ता राजेश राठी ने भी एक होर्डिंग लगाया। इसमें केंट से भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेश की छोटी फोटो ऊपर की लाइन में लगाया गया। इसके नीचे भाजपा महानगर अध्यक्ष धनु महाजन और संसद प्रो.एसपी सिंह धंधेल की बड़ी फोटो लगी है। नीचे की लाइन में कार्यकर्ताओं के फोटो हैं। विधायक को जब इसकी जानकारी हुई, तो उन्हें ने बात नागवार गुजरी। उन्होंने होर्डिंग लगवाने वाले कार्यकर्ता को फोन कर हड़काया। बोले- ये क्या बदतमीजी है जो? मेरी फोटो कहां लगाया दी? इसके बाद विधायक होर्डिंग उतरवाने पहुंच गए। कार्यकर्ता ने होर्डिंग उतरवाने पर विरुद्ध का विरोध किया। अज सोशल मीडिया पर विवायक और कार्यकर्ता के चीन हुई फोन की बातचीत और वीडियो वायरल हो रहे हैं सोने पर हुई बातचीत के बाद विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने मौके पर जाकर होर्डिंग उतरवा दिया। वहां पर कार्यकर्ता भी पहुंच गए। कार्यकर्ता ने कहा- विधायक जी आप मेरा होर्डिंग क्यों हटवा सकते हैं? विधायक कहते हैं कि तुम्हारी फोटो नहीं लगेगी।





## कितना सही है नाश्ते में दही लेना

नाश्ते में हम सभी कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं, जो खाने में टेस्टी हो और हमारे शरीर को पूरा दिन काम करने की एनर्जी देता रहे। ऐसे में ज्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में नाश्ते में दही खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या नाश्ते में दही लेना एक स्वस्थ विकल्प है?

पाचक होती है लेकिन नींद दिलाती है

● यदि आपके दिन शुरुआत ही दही के साथ हो रही है तो यह आपको एनर्जी देने के स्थान पर नींद दिला सकती है और शरीर में सुस्ती बढ़ा सकती है। इसलिए दही कभी भी आपके फस्ट फूड का भाग नहीं होना चाहिए। हालांकि दही नाश्ते का एक शानदार हिस्सा है। यदि आप इसे खाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तब,

समझे विरोधी बातों का अर्थ

● एक तरह तो हम कह रहे हैं कि दही नाश्ते में खाना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि इसे खाने से सुस्ती बढ़ सकती है। दरअसल, ये दोनों ही बातें सही हैं। दही खाने पर आपको एनर्जी मिलेगी या सुस्ती आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दही खाने का आपका तरीका क्या है।

इस तरह खाएं और इस तरह ना खाएं दही

● आप नाश्ते में चपाती, परांठा, विल्ला आदि के साथ दही खा सकते हैं। एक कटोरी दही का सेवन नाश्ते में करना शरीर के लाभकारी होता है और पाचनतंत्र को सही करता है। साथ ही शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा देने में लाभकारी होता है।  
● लेकिन नाश्ते में दही का सेवन तभी करना चाहिए जब आप सुबह के समय नाश्ते से पहले कुछ खाया या पी चुके हों। जैसे, सुबह की शुरुआत आपने पानी के साथ की हो और फिर चाय-टोस्ट, स्नाउटस या ड्राईफ्रूट्स आदि खाए हों। इसके एक घंटे बाद यदि आप नाश्ते में दही का सेवन करते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको गैस बनने की समस्या है तो इन 5 सब्जियों से बचना चाहिए

खाली पेट नहीं खानी चाहिए दही

● सुबह के समय आप नाश्ते में केवल मीठी दही का उपयोग कर सकते हैं। खट्टी दही खाने से परहेज करें। साथ ही नाश्ते में दही खाते समय आप इसमें एक चम्मच शक्कर मिला सकते हैं। यदि आपको शुगर की समस्या नहीं है तब।  
● दिन की शुरुआत यदि किसी भी कारण देरी से हुई हो और आपके पास नाश्ता करने का समय ना हो तो भूलकर भी खाली दही ना खाएं। यदि आप खाली पेट दही खाते हैं तो आपको जबदस्त नींद आएगी और आप खुद को बहुत थका हुआ अनुभव करेंगे।  
● ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाली पेट दही खाने से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या हो जाती है। इससे शरीर में ब्लड का फ्लो कम होता है और ऑक्सीजन का स्तर घटने लगता है। यही कारण है कि बहुत तेज नींद आती है और बेहोशी जैसा अनुभव होता है।



आप चाहे मानसिक काम अधिक करते हैं या शारीरिक काम। यदि आपको काम करते समय बहुत जल्दी थकान होने लगती है तो इसका एक अर्थ यह होता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या है। जी हां, केवल पोषण की कमी के कारण ही नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी के कारण भी जल्दी थकान होती है। जो लोग नियमित रूप से जरूरी पानी नहीं पीते हैं, उन्हें काम करते समय अधिक थकान होना और अन्य लोगों की तुलना में जल्दी थकान होने जैसी समस्याएं होती हैं। जाने, जल्दी थकान होने के अन्य कारण और उनके निवारण के तरीके

जल्दी थकने की वजह

- आमतौर पर जो लोग बहुत जल्दी थकान होने की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके शरीर में कुछ खास तत्वों की कमी देखने को मिलती है।
- पानी की कमी
- खून की कमी
- विटमिन-बी 12 की कमी
- फॉलेट या फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है।

जल्दी थकान से बचने के तरीकों में ना केवल अपने खान-पान पर ध्यान देना है बल्कि यह भी ध्यान देना है कि जिस ड्रायट का सेवन आप कर रहे हैं और जिन ड्रिंक्स को आप ले रहे हैं, क्या वे आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। यही जाने कैसे रखा जाएगा इस बात का ध्यान।

तरल पदार्थों का सेवन

- जल्दी-जल्दी होने वाली थकान की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। इनमें जूस, सूप, छाछ, दाल इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही समय-समय सादा पानी पीते रहें। वयस्कों को हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए।

तनाव को नियंत्रित करना सीखें

- जल्दी थकने की एक बड़ी वजह लगातार बना रहनेवाला तनाव भी होता है। तनाव का कारण चाहे जो भी लेकिन यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जल्द थका देता है। इसलिए तनाव से

## लगातार बनी रहती है थकान तो ऐसे रखें अपना ध्यान



बचने के लिए हर दिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करें। यह आपको मानसिक रूप से फिट रखने का काम करेगा।

फलियों का सेवन करें

- हरी फलियां कई तरह की वरायटी में आती हैं। खास बात यह है कि मौसम की प्रकृति और उस दौरान शरीर की जरूरत के अनुसार हर सीजन में आनेवाली फलियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।

- हरी फलियां फाइबर युक्त होती हैं और इनका पाचन धीमी गति से होता है। इसलिए ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने का काम करती हैं, जिससे शरीर पर थकान कम हावी होती है।

ड्राईफ्रूट्स

- ऐसा नहीं है कि ड्राईफ्रूट्स का सेवन केवल सर्दियों में ही करना चाहिए। बल्कि सीमित मात्रा में और दूध के साथ ड्राईफ्रूट्स का सेवन गर्मियों में भी हर दिन किया जा सकता है।
- क्योंकि ड्राईफ्रूट्स केवल हमारे शरीर को गर्माहट देने का ही काम नहीं करते हैं बल्कि पोषण देने का काम भी करते हैं। शरीर की कमजोरी को दूर करने में मीठ भी अच्छी भूमिका निभाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में हम आपको मीठ खाने की सलाह नहीं देना चाहते हैं। इस समय में आप थकान से बचने के लिए ड्राईफ्रूट्स यानी सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं।



## शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण

शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना कई रोगों का कारण बनता है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर सबसे जल्दी और सबसे बुरा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण और कारण क्या होते हैं,

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से अर्थ है कि शरीर को अपनी नियमित क्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाता।
- जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले व्यक्ति को थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती या सांस फूलने लगता है। इसके बाद शरीर में रक्त के प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। इससे थकान और घबराहट बढ़ जाती है।

हो सकती हैं ये बीमारियां

- यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन ड्रेमेज और हार्ट अटैक तक की स्थिति बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है।
- ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायरॉइड हॉर्मोन का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायरॉइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ सकता है या बहुत अधिक घट सकता है।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण

- शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कई कारण होते हैं, जो व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर निर्भर करते हैं। जो लोग बहुत अधिक आलस से भरपूर जीवनशैली जीते हैं यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- जो लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं लेकिन उसके हिस्से से ड्रायट नहीं लेते हैं, उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।
- जिन लोगों के भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है अगर वे लंबे समय तक इसी तरह का भोजन लेते रहें तो उनके शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्योंकि फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



## चैन की नींद सोना है तो जरूर करें यह काम

अगर आप चाहते हैं कि रात में आपको सुकून की नींद आए, पैरों में कुलन और बेचैनी के कारण आपकी नींद में किसी तरह की बाधा ना आए तो आपको सोने से पहले एक खास काम करना होगा। यह काम आपके शरीर को राहत देने के साथ ही दिमाग को भी शांति देगा। आइए, जानते हैं कि आखिर क्या और कैसे करना है।

आपको क्या करना है?

- बिस्तर पर जाने से पहले आपको अपने पैर साफ पानी से धुलकर कॉटन के कपड़े से पोछकर साफ करने हैं। इसके बाद सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करें। यह मालिश 2 से 3 मिनट की भी हो तो काफी है। यहां जानें इस तरह हर दिन मालिश करने से आपको किस तरह के लाभ होंगे।

पैर के तलुप में होते हैं सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स

- हमारे पैर के तलुओं में पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। पैर के तलुओं पर मसाज करने से इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर का तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। इसलिए आप अच्छी नींद आती है।

ताउम्र रहेंगे युवा


- अगर आप हर दिन सोने से पहले अपने पैर के तलुओं पर सरसों के तेल से मालिश करेंगे तो आप ताउम्र युवा बने रहेंगे। यहां युवा बने रहने से हमारा आशय है कि आपके दांत, आपकी दृष्टि और आपके शरीर के जोड़ों में किसी तरह का दर्द या समस्या नहीं हो पाएगी।

चश्मा नहीं लगेगा

- यदि आप सोने से पहले हर दिन अपने पैरों पर सरसों तेल से मालिश करते हैं तो आप अपनी कमजोर आइसाइट को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो हफ्ते में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा।

पाचन को ठीक रखें

- आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। लेकिन यह सही है कि जो लोग नियमित रूप से अपने पैर के तलुओं पर मालिश करते हैं या किसी और से कराते हैं, उनका पाचनतंत्र अन्य लोगों की तुलना में काफी ठीक रहता है। साथ ही उन्हें पेट संबंधी रोग नहीं घेरते हैं।
- साथ ही ऐसे लोगों के शरीर पर थकान हावी नहीं हो पाती है। पैर के तलुओं की मसाज करने से शरीर के डैमेज सेल यानी इलियुस्ट कोशिकाओं की जल्द मरम्मत होती है। इससे त्वचा भी चमकदार बनी रहती है। तो देर किस बात की, खुबसूरती और सेहत के लिए आज से ही शुरू करें पैर के तलुओं की मालिश।



आंखें शरीर का सबसे जरूरी, सुंदर और नाजुक अंग हैं। सर्दियों के मौसम में नमी और ठंडक के कारण आंखों में पानी आ जाता है लेकिन यह ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत भी हो सकता है। इस बीमारी में आंखों से बहुत ज्यादा पानी आना, धुंधला दिखाई देना और चुभन महसूस होना, सूजन, रेशेज, लालपन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी का समय पर इलाज न करने पर आंखों की रोशनी जा भी सकती है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टर की दवाइयों के साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप बिना किसी नुकसान के इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं।

आंखों में पानी आना

गोला कपड़ा - आंखों को हाथों से इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आंखों में जलन, दर्द या खुजली होने पर साफ पानी में कपड़े को भिगोकर आंखों की सफाई करें। इससे किसी भी तरह की बीमारी का खतरा कम हो जाता है।

नारियल का तेल - नारियल तेल में मौजूद गुण आंखों की गंदगी को साफ करते हैं। रोजाना आंखों के नीचे और आस-पास नारियल के तेल की मालिश करें। आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा।

हार्बल टी - कोमोमाइल या पेपरमिट चाय की पतियों को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों की सफाई करें। ध्यान रहे कि पानी ज्यादा गर्म न हो।

नमक - कई बार आंखों में जलन और खुजली के कारण पानी आने लगता है। ऐसे में आप 1 गिलास गर्म पानी में

## ड्राई आई सिंड्रोम का संकेत हो सकता है आंखों में पानी आना

चूटकीभर नमक डालकर आंखों की सफाई करें। दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल खुजली और जलन की परेशानी को दूर कर देगा।

बैकिंग सोडा - साफ पानी में 1 चम्मच बैकिंग सोडा मिलाकर गर्म करें। पानी थोड़ा रह जाने पर इससे अपनी आंखों को धो लें। इससे आपको आराम मिल जाएगा।

टंडा दूध - कॉटन बॉल को टंडे दूध में डिप करके अपनी आंखों के आस-पास रगड़ें। इसके अलावा आप कॉटन बॉल को टंडे दूध में भिगोकर रख भी सकते हैं। इन उपायों को सुबह-शाम करने से आपको आराम मिल जाएगा।

एलोवेरा - एलोवेरा जेल में 1 चम्मच शहद और 1/2 कप एल्डरबेरी चाय मिलाएं। रोजाना दिन में 2 बार इस मिश्रण से अपनी आंखों को धोएं। आपको परेशानी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी।

कच्चा आलू - एस्ट्रिजेंट के गुणों से भरपूर कच्चा आलू आंखों में पानी आने की समस्या से जल्दी राहत देता है। आलू की पतली स्लाइस काट कर कुछ देर फ्रिज में रखें। इसके बाद इस ठंडी स्लाइस को 15 से 20 मिनट के लिए आंखों के उपर रख लें। 2-3 दिन तक इसका इस्तेमाल आपकी इस समस्या को दूर कर देगा।







# महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, सरकार और समाज



कुमार कुषान

महिला सुरक्षा को लेकर समाज सतर्क रहे और सरकार से जवाबदेही चाहे, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यह सतर्कता और उद्देलन सत्ता हासिल करने के षड्यंत्र की तरह इस्तेमाल हों, तो फिर समाज को सोचना चाहिए कि आखिर वह क्यों अपनी मावनाओं का इस तरह दोहन होने दे रहा है। अमी निर्मया प्रकरण को लेकर फिर से कांग्रेस पर उंगलियां उठाई जा रही है, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निर्मया के इलाज से लेकर दोषियों को पकड़ने तक सबमें तत्परता दिखाई।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर की बलात्कार की घटना के बाद हत्या के बाद से देश भर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मुश्किल में मरीज हैं और बिना इलाज के अस्पतालों से लौट रहे हैं। डॉक्टर कार्य स्थल पर अपनी सुरक्षा को लेकर केंद्रीय संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं। इस बिल को 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल का मकसद डॉक्टरों के साथ हिंसा को परिभाषित करना और ऐसा करने वाले शख्स के लिए दंड देने का प्रावधान करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर से दरिद्री को भगवाह घटना करार देते हुए देश भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के संबंध में संस्थान विकसलता पर चिंता जताई है। शीप अदालत ने कहा दूसरी की स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने वाली के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता बंदोस्त नहीं किया जाएगा। जमीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता।

कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तंत्र स्थापित करने के लिए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए समाज और मरीजों के हित में काम पर लौटने की अपील भी की। इसके साथ ही कोर्ट ने डॉक्टर से दरिद्री के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देर पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई हैं, जो वेदद चिंताजनक है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की अजादी को मानते हुए कहा कि दुष्कर्म पीड़ित के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा एक बड़ी समस्या है। 1.4 अरब की आबादी वाले देश में 2022 में औसत प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गईं। भारत में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किये गये। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले 2021 में 4,28,278 जबकि 2020 में 3,71,503 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सिलसिले में हर घंटे लगभग 51 प्राथमिकी दर्ज की गईं। आंकड़ों के अनुसार प्रति एक लाख आबादी में महिलाओं



के खिलाफ अपराध की दर 66.4 प्रतिशत रही जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 75.8 रही। एनसीआरबी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध (31.4 प्रतिशत) अपराध प्रति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता किए जाने के थे, इसके बाद महिलाओं के अपहरण (19.2 प्रतिशत), शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला (18.7 प्रतिशत) और बलात्कार (7.1 प्रतिशत) के मामले रहे। आंकड़ों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सबसे अधिक 65,743 प्राथमिकी दर्ज की गईं, इसके बाद महाराष्ट्र (45,331), राजस्थान (45,058), पश्चिम बंगाल (34,738) और मध्य प्रदेश (32,765) रहे। एनसीआरबी के अनुसार पिछले साल देश में जितने मामले सामने आए, उनमें से 2,23,635 (50 प्रतिशत) इन पांच राज्यों में दर्ज किए गए। गृह मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली करने के लिए 28 मई, 2018 को एक नया इमरजेंसी सुरक्षा प्रमाण्ड स्थापित किया है। और समग्र रूप से न्याय के तीव्र और प्रभावों प्रशासन के माध्यम से और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनमें सुरक्षा की अधिक भावना उत्पन्न करना। नया प्रमाण्ड उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए नीति निर्माण योजना समन्वय निर्माण और परियोजनाओं / योजनाओं को लागू करने के साथ-साथ जेल सुधार मानव तस्करी विरोधी और संबंधित विषयों के लिए जिम्मेदार है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ

अपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी और टेक्नोलॉजी का बड़ा हुआ उपयोग और फॉरेंसिक विज्ञान और अपराध और अपराधिक रिकॉर्ड के लिए एक सहायक इंको सिस्टम को सक्षम करना शामिल है।

9 अगस्त को घटी इस घटना से 16 दिसंबर 2012 के निर्भया प्रकरण की भगवाह याद लोगों को आ रही है। 2012 के बाद सीधे 2024 में ऐसी घटना घटित हुई हो, बल्कि इस बीच इस तरह के अपराध की एक लंबी फेरीस्ट बन गई, जिसे विषयसत ने टूटने ही नहीं दिया। यह सोचकर ही विपुषा से भर जाता है। यह सोचने को मजबूर कर देता है कि हम कितने गिरे हुए समाज में तब्दील हो चुके हैं, जिसमें एक स्त्री पर हुए भयानकतम अत्याचार को सत्ता हासिल करने का माध्यम बनाने में कोई संकोच नहीं होता। क्योंकि तब जिन लोगों से उम्मीद थी कि वे राजनय और नैतिकता के धर्म का पालन करके एक स्त्री का साथ देंगे, उन लोगों ने अखंड मुँद ली थी और अब भी वही रवैया नजर आ रहा है। इसी तरह की घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना की है। जहाँ एक दलित को, एक नवाम्लिग की शिकार बनाया गया। पारू थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव में दलित बुवती की हत्या मामले में नए-नए कानूनों सामने आ रहे हैं।

फिलहाल सबका ध्यान पश्चिम पर केन्द्रित है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इत्तीफ की मांग से लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग हो चुकी है। ममता बनर्जी को महिला होने का वास्ता भी दिया जा रहा है। उनके साथ टॉपमसी की मुखर सांसद महुआ मोईजा पर भी

सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा काँग्रेस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रा बड़े हक से पूछ रहे हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी कोलकाता कब जाएंगे। कायदे से इस समय दो ही लोगों से जवाब मांग जा सकते हैं, एक है ममता बनर्जी और दूसरे हैं नरेन्द्र मोदी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी, मगर इसमें जो लोग महिला चालाकान सामने कर रहे हैं, वह संकीर्ण मानसिकता को ही दिखाता है।

राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ही हैं और प्रियंका गांधी तो काँग्रेस की एक सामान्य पदाधिकारी से अधिक कुछ नहीं हैं। प.वंगाल में काँग्रेस की सत्ता भी नहीं है, न ही केंद्र में काँग्रेस का शासन है, इसलिए इस मामले में काँग्रेस से सवाल किया जाना, राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है।

एक महिला के साथ होने वाले अपराध के दर्द को एक महिला ही क्यों समझे, एक पुरुष क्यों न समझे, यह सवाल समाज को करना चाहिए। इस मामले में महुआ मोईजा पर उंगलियां उठाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे एक सांसद ही हैं, न कि प.वंगाल सरकार का हिस्सा। और अगर उनसे जवाब मांग जा रहे हैं, तो फिर वही बर्ताव सारे सांसदों के साथ किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने लालकिले के प्राचीर से अपने भाषण में महिला अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने की बात जरूरत कही, लेकिन उनका रवैया भी अब तक खराब ही रहा है। अगर पश्चिम बंगाल में पहले सदस्यखली और अब कोलकाता बलात्कार कांड पर वे सख्त फैसलों के पक्ष में खड़े दिखते हैं, तो उन्हें मणिपुर, हाथरस, कटुआ, उन्नाव और उत्तराखंड में अतिक्रम घंटारी जैसे मामलों पर भी यही रुख अपनाना चाहिए था।

इस पूरे प्रकरण में पीड़िता को इंसाफ दिलाने का सवाल सबसे अहम होना चाहिए था, मगर वहाँ अब प्राथमिकता सूची में सबसे आखिरी में दिख रहा है। सिवायक के कारण इसमें भ्रामक तथ्यों को फैलाने का जोर बढ़ गया है। मामला फिलहाल खंबीर आँसू के सुपुर्द है, तो उसे उसका काम करने देना चाहिए। लेकिन नियमों, कानूनों का उल्लंघन करते हुए कहीं पीड़िता की पहचान उजागर की जा रही है, कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ब्यूरा दिया जा रहा है और उसमें भी सच-झूठ का घालमेल हो। इस मामले में प.वंगाल पुलिस ने अब भाजपा के दो और टीएमसी के एक नेता को नोटिस भी भेजा है। लेकिन इस नोटिस के बावजूद गलत सूचनाएं या अफवाहें फैला दी गई हैं और अब सोशल मीडिया के जरिए उन्हें देश भर में प्रसारित किया जा चुका है। इसमें लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है।

## संपादकीय

### शिक्षा मंदिर में शैतान

हायड्रु के टाणे जिले के बदलापुर में निजी स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण की घटना वाकई सन्नकारि है। घटना के बाद हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और स्कूल में तोड़फोड़ की। अदोषित के चलते लोकल ट्रेनों की आबाजाही घंटों बाधित रही। सरकार ने मामले को फास्टट्रैक कोर्ट में चलाने की बात की है। हफ्ते भर पहले तो नव व चार साल की दो बच्चियों का सफाईकर्मि अक्षय शिंदे ने यौन शोषण किया। बच्चियों के माताइयों ने सदिह होने पर पृष्ठताछ की। चिकित्सक द्वारा की गई जांच में असल घटना का खुलासा होने के बावजूद पुलिस ने मामले को पॉक्सो में दर्ज करने पर आनाइकानी की। बुसाएर लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आरोपी को गिरफ्तार कर डू प्रधानाचार्य शिक्षिका व एक सहयोगी को बहरहाल निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही के लिए पुलिस के तीन अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। हैरत है डू इतनी छोटी बच्चियों के इंड्रॉइड पुरुष सहायक क्यों रखे जाते हैं डू जबकि नादान बच्चों के साथ स्कूलों परिसर में होने वाली यौन शोषण की घटनाएं लगातार दोहराई जा रही हैं। इसके लिए स्कूल प्रशासन बेथी है। जिस चक्र देश की सभसे बड़ी अदालत कोलकाता में टूटे डॉक्टर के रूप व हत्या के मामले में सुनवाई कर रही थी, टीक उसी चक्र मामलों पर बरपे कहर का खुलासा हुआ। हालाँकि देश में यौन हिंसा का शिकार होने वाले बच्चों को लेकर सख्त कानून हैं डू परंतु कानून अपराध के बाद काम करना शुरू करता है। इस तरह की हैवानियत से मामलों को बचाने का जिम्मा समाज के हर शख्स का है। सरकारी आंकड़े बताते हैं डू प्रतिघंटा तीन बच्चों का रेश होता है तथा पाँच का यौन शोषण हो रहा होता है। ये बच्चे दरअसल इतने मामूली हैं कि इनमें गुड टैचडवैड टच जैसी बात भी नहीं समझ में आती है डू मगर इस तरह की हैवानियत से बचाने की पूरी जिम्मेदारी स्कूलों को सख्ती से निभानी होगी। सहायक डू सफाईकर्मि डू सुरक्षक व अन्य स्टाफ में सफाई महिलाओं को नियुक्ति होनी चाहिए। मामूली पीड़ितों को जेठनी कैफियत को सम्प्रना आसान नहीं है डू जिसको वे तड्डउग्र लेते हैं। स्कूल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामूली को इस धिनीने अपराध से बचाने में असफल सभी लोगों की सत्ता जरूर दी जाए डू ताकि आइंड व अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करने की हिम्मत न कर सकें।

### वितन-मनन

### सत्ता और नैतिकता

सत्ता के संचालन में शक्ति की अपेक्षा रहती है या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है। शक्ति दो प्रकार की होती है- नैतिक शक्ति और उपकरण शक्ति। नैतिक शक्ति के बिना तो व्यक्ति सही ढंग से प्रशासन कर ही नहीं सकता। उपकरण शक्ति का जहाँ तक प्रश्न है, एक सीमा तक वह भी जरूरी है। किंतु वह शक्ति का एकमात्र तत्व नहीं है। उससे भी अधिक आवश्यक है- बुद्धि, विवेक, साहस और निर्णायक क्षमता। जिस शासक में ये चारो तत्व नहीं होते, वह सही रूप से सत्ता को संचालित नहीं कर सकता। एक शासक के पास बहुत बड़ी सेना हो, शस्त्रों का विपुल भंडार हो, पर सही समझ न हो और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता न हो तो शक्ति भी अहितकर बन जाती है। सामान्यतः राष्ट्रीय एवं सामाजिक सत्ता के संचालन में शक्ति तत्व अपेक्षित रहता है, पर वही सब कुछ नहीं है, परम तत्व नहीं है। अधिकारी व्यक्ति की चरित्रनिष्ठा, जागरूकता और जनता की सहानुभूति का योग होने से ही सत्ता के गलियारों को पार किया जा सकता है। किसी एक तत्व की कमी होने ही प्रशासक विवादों के घेरे में खड़ा हो जाता है। उस समय वह सत्ता का संचालन करता है या सत्ता के द्वारा संचालित होता है, कुछ कहना कठिन है। मयावर्त पुरुषोत्तम राम और रावण का प्रसंग प्रसिद्ध है। रावण की सत्ता से संसार कोपता था, इधर राम बनवासी थे। उनके पास न वैसी सेना थी, न वैसा शास्त्रबल था। फिर भी उन्होंने रावण की सत्ता को चुनौती दे दी। रावण पराजयी हो गया, क्योंकि उसका चरित्रबल क्षीण हो गया, सुझबूझ समाप्त हो गई, सही निर्णय लेने की क्षमता चुक गई और उसने जनता की सहानुभूति खोकर गृह-कलह के बीज बो दिए। शक्ति के सहारे सत्ता का संचालन होता तो न रावण मारा जाता और न कोरवों को पराजय का मुंह देखना पड़ता। पिछली सदी तक भारत का शासन-सूत्र अखंड संचाल रहे थे, शक्ति की उनके पास कमी नहीं थी। उनके सामने भारत छोड़ने की विवशता शक्ति की कमी से नहीं थी।



निर्मल रानी

यदि आप रोड टैक्स अदा किये बिना बहाने चलायें तो आपका चालान होना निश्चित है। अगर पालिकाओं व नगर निगम को यदि आप नाले व सीवर सेवाओं के भुगतान समय से अदा न करें गृह कर का भुगतान निर्धारित समय पर न करें तो जुर्माना लगाना लाजमी है। और अब तो थोड़े-थोड़े फसले पर पड़ने वाले टोल वैरिबर जनता से पैसे वसूलने के लिये लागू किये हैं। हालाँकि अभी तक टोल वसूलने का तर्क ही समझ में नहीं आया कि आखिर जब सरकार किसी व्यक्ति के नया वाहन लेने के समय ही प्रत्येक वाहन से एक मुक्त मोटा रोड टैक्स वसूल कर लेती है उसे बाद कदम कदम पर टोल वसूलना का क्या मतलब है? और अगर प्रत्येक गाड़ी से जगह जगह टोल वसूलना ही है तो रोड टैक्स के नाम पर वसूल की जाने वाली मोटी रकम वसूलने का मतलब क्या? अभी पिछले दिनों हुई यात्रियों नवनिर्मित सड़कों में गड़े पड़ते दिखाई दिये। अनेक वाहन उसमें धँसे हुये नजर आये। कौन है इसका जिम्मेदार? टैक्स अदा करने वाली जनता या टैक्स के नाम पर लूट व भ्रष्टाचार करने वाले सरकार व प्रशासन? मगर सरकार सब कुछ मनमानी तरीके से कर रही है। और परेशानहाल आम लोगों की जेब

# जब तक समाज असंगठित व विभाजित है, यूँ ही लुटता रहेगा

किसी न किसी बहाने इसी तरह कटती रहती है। सवाल यह है कि इस वसूली के बदले में सरकार जनता को वह सुविधाएँ दे भी पाती है जिसके नाम पर जनता से पैसे वसूल जा रहे हैं? जनता नाले व सीवर के नाम के बिल अदा करती है। जलापूर्ति विभाग पानी के पैसे लेता है। मगर जब नालियाँ व नाले जाम पड़े हैं, दुर्गन्ध फैल रही हो। निर्धारित सफाई न होती हो? इसी तरह सोवरेज प्रणाली फेल हो चुकी हो? जगह जगह सीवर के मेनहोल ओवर फ्लो हो रहे हैं? सड़कों व गलियों में इन ओवरफ्लो सीवर की सड़ाप फैली हो, नाले व नालियाँ भ्रष्टाचारपूर्ण निर्माण के कारण टूटे पड़े हैं, नालों का परवाह रुका पड़ा हो, इसके बावजूद यदि सरकार नाले व सीवर के बिल निर्धारित रूप से भेजती रहे तो जनता को क्या यह प्युने का हक नहीं कि वह किस बात के पैसे वसूल जा रहे हैं? इस भ्रष्टाचार, लापरवाही, नैतिकताहीन व सरकारी अनदेखी की कौमल जनता को बरसात में मोहल्ले कॉलोनी में जलपराव की स्थिति में अपने घरों के फॉनीयर व अन्य जरूरी व कामिती सामानों की बचाई से चुकानी पड़ती है। बाजार व दुकानें पानी से भर जाते हैं। दुकानदारों का भारी नुकसान भी होता है कारोबार भी टप हो जाता है। कौन है इस दुर्जन्यता का जिम्मेदार? आखिर जनता को इस दुर्जन्यता का भुगतान क्यों करना पड़े?

सीवर के मेन होल के बेट जाने पर यदि व मलमूत युक्त कीचड़ भी बूट मूत में स्कूटर साइकिल सड़कर गिर जाते हैं। उन्हें चोट लग जाते हैं। कई बार सड़कों के खुले मेन होल में गिरने से लोगों की मौत तक हो जाती है। विपन्न जनता की जान की कोई कौमल नहीं? जलापूर्ति विभाग पानी के पैसे तो जरूर लेता है परन्तु प्रायः काला किलेन व दुर्जन्यपूर्ण प्रदुषित जल की अपूर्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना देखे घोखे से उसे पी

ले तो मौत निश्चित है। क्या ऐसे ही गंदे व प्रदुषित जल की मफाई के लिये जनता से पैसे वसूल जाते हैं? इसी तरह रेल व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो रही है। परन्तु यदि भारत ट्रेन परिचालन को सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सरकार पेश कर रही है और अग्रे बुलेट ट्रेन संचालन के मामले दिखाए जा रहे हैं। पिछले दिनों श्रांसी में इसी वद भारत ट्रेन में परसे गये भोजन में कोड़े चलते मिले। यात्रियों ने हंगामा किया परन्तु कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। अरक्षण होने के बावजूद अनारक्षित सवारी अरक्षित बोगी में भरी होती है। यहाँ तक कि अधिकृत यात्रियों को बोगी में शीशालय तक जाने का रास्ता नहीं मिलता। शीशालय के भीतर की हालत दयनीय रहती है। सैकड़ों बने बगिये रेल स्टेशन को तोड़ कर जनता के टैक्स के हजारों करोड़ खर्च कर उन्हें बुरा बनाया जा रहा है। उन निर्माण कार्य में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। यात्रियों को चमकते हुये रेल स्टेशन से नब्दा जरूरत सुगम व सुरक्षित वाटा की है। जरूरत बैठने की सीट और साफ सुभरे वाहन का भी है। इसके विपरीत जनरल डिब्बों की संख्या कम की जा रही है। ए सी व अरक्षित बोगियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सामान्य ब्रेणी के यात्री त्राहि त्राहि करते रहते हैं। परन्तु जनता की तरफ से अबाज उठाने वाला कोई नहीं। और अब इतिहा तो वह हो चुकी है कि सत्ता समर्थक व शासन प्रशासन के लोगों ने इन बातों का ऐसा जवाब तैयार कर लिया है कि जनता का सवाल पड़ना तो दूर उल्टे उससे जनता को लाजबाब कर दिया जाता है। याने अगर आप कहें कि हमारा घर मोहल्ला डूब रहा है तो जवाब मिलेगा कि अरे करोड़पतियों के सेक्टर डूबे हैं, पाँच करोड़ोंनिचा डूबी हुई है। आप अपनी कॉलोनी मोहल्ला लिए बैठे हो? यदि आप अपनी दुकान या बाजार जलमग्न होने की बात करें तो जवाब

मिलेगा कि डी सी ऑफिस, नगर निगम का दफ्तर, बैंक मुख्यालय डूबा हुआ है आपको बाजार व अपनी दुकान को पड़ी है? यदि आप कहें कि बस अड्डा पानी से भरा हुआ है तो जवाब मिल सकता है कि रेल लाइनें पानी में डूबी हैं, हवाई अड्डा में पानी भर गया, हवाई अड्डे की छत बारिश में गिर गयी तो बस अड्डा क्या चीज है? यदि कहीं कोर्ट कचहरी या अन्य भवन टपकता मिले तो जवाब मिल सकता है कि अरे भाई अशोष्य में भ्रष्टाचार का नवनिर्मित मॉडर टपक रहा है। जब भगवान का घर बारिश में सुरक्षित नहीं तो अन्य भवनों की बात ही क्या करनी? गोवा हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हर साल अखबारों व टीवी में जनता की इस तरह की परेशानियों की खबरें प्रकाशित प्रसारित होती रहती हैं परन्तु कोई कार्रवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि भ्रष्टाचारी जनता असंगठित है और चतुर राजनीतिज्ञों द्वारा तरह तरह के वनों में विभाजित की जा चुकी है। जबकि परेशानी हर खल्लो आम को उठानी पड़ती है। दूसरी तरफ इस दुर्जन्यता का जिम्मेदार वगैरें चाहें वगैरें मंत्री, सांसद, विधायक हो, प्रशासनिक व स्थानीय निकाय के अधिकारी हो या फिर उनसे जुड़ा ठेकेदार तबका यह सभी संगठित होकर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। और आम लोग गरीब अमीर धनाढ्य, अंधिजात, धर्म-जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, दलीय राजनीति जैसे अनेक वनों में बँटे हुये हैं। समाज के इसी विभाजन का लाभ वह संगठित वर्ग उठाते है जो जनता के टैक्स के पैसे को तो विकास के नाम पर मिलकर लुटता खाता है परन्तु उसी जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता जो देश की अनेक अक्षययुत सुविधाओं के लिये टैक्स तो अदा करती है परन्तु वह सुविधाएँ उसे मिल नहीं पाती।

## मंकी पॉक्स: निगरानी का दायरा बढ़ाना होगा



अजय प्रताप तिवारी

दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की मार से जूझ रही है। इसी बीच मंकी पॉक्स वायरस ने दमक दे दिया है। मंकी पॉक्स वायरस इन दिनों दुनिया के लगभग 116 देशों में दहशत मचा रखे है। कोविड-19 महामारी के बाद यह पहला मंत्र है जब दुनिया एक बार फिर से सहमी हुई है। मंकी पॉक्स वायरस के विकराल रूप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी' घोषित कर दिया है। कई अखंडी देशों में मंकी पॉक्स वायरस को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पहले ही घोषित किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व में कई महामारियों को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा के रूप में घोषित किया जा चुका है, जिसमें से कोविड-19, इबोला वायरस, जोका वायरस तथा पोलियो शामिल है। मंकी पॉक्स का पहला संक्रमण वर्ष 1958 में अनुसंधानकर्ताओं ने बंदरों की कॉलोनीयों में चेचक जैसे संक्रमण दिखाई दिए

थे जिसे 'मंकी पॉक्स' नाम दिया गया था। मंकी पॉक्स वायरस का प्रभाव मनुष्यों में 1970 के करीब कांभी के रहने वाले एक 9 महीने के बच्चे में देखने को मिला था। इसके बाद 11 अक्टूबरी देशों में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। शुरूआती दौर में मंकी पॉक्स वायरस का कहर अफ्रीकी देशों तक सीमित रहा। अफ्रीकी देशों के बाहर मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला 2003 में अमेरिका में देखा गया था। इसके बाद थ्री-थ्री इस वायरस का प्रभाव कई अन्य देशों में देखने को मिलने शुरू हो गए थे। पिछले कुछ वर्षों में मंकी पॉक्स वायरस का प्रभाव बढ़ा है। इराहल में 2018, 2019 में दूके और सिंगपुर में मंकी पॉक्स वायरस का मामले देखने को मिला था। बर्लंद हेल्थ अगिनाइजेशन से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में तक मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या लगभग 16 हजार से ऊपर पहुँच चुकी है तथा 600 के करीब लोगों की जानें जा चुकी है। मंकीपॉक्स वायरस का प्रभाव 2022 में भी देखने को मिला था। तब करीब 116 देशों में 99,176 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 208 व्यक्तियों की मौत हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जुलाई 2022 में भी मंकीपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। वर्ष 2023 में मंकीपॉक्स से करीब 11हजार लोग प्रभावित थे जबकि 500 लोगों की मौत हुई थी। मंकीपॉक्स वायरस के प्रभाव को लेकर भारत के संदर्भ में बात करें तो आखिरी मामला मार्च 2024 में केरल राज्य में देखने को मिला था, जबकि 2022 में कुल 30 व्यक्तियों में यह संक्रमण पाया गया था।

फिलहाल मार्च 2024 के बाद अभी तक कोई मामला मंकीपॉक्स को लेकर भारत में नहीं दर्ज किया गया है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान भी मंकीपॉक्स फैला रहा है। मंकीपॉक्स के बढ़ते प्रभाव से मानव समाज पर कई प्रकार के दबाव बढ़ सकते हैं। जब कोई संक्रमण वैश्विक स्तर पर फैलता है तो उसका असर अर्थव्यवस्था, आयात-निर्यात, पर्यटन एवं उद्योग के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। संक्रमण के चलते लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएँ बनी रहती है तो इसका असर रोजगार, कर्मचारियों और बाजारों पर पड़ता है। कांवेबल में गिरावट आती है जिसका प्रभाव उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, काम का दबाव बढ़ता है। इस बीमारी को लेकर भारत की चिंता जाबज है। देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार सतर्क दिख रही है। इस बाबत उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें विदेश यात्रा से भारत वापसी कर रहे यात्रियों पर नजर रखने और स्क्रीनिंग करने की हिदायत दी गई है। संक्रमण के प्रारंभिक उपचार के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार करने की बात भी की जा रही है। वर्तमान संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली में 32 प्रयोगशालाएँ परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली में मंकीपॉक्स को ध्यान में रखते हुए इलाज के लिए छह अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराई जागी। मंकीपॉक्स को रोकथाम के लिए सरकार को व्यापक और समन्वित प्रयास करने की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं का शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में



विस्तार और सुदृढ़ करने चाहिए। सोमा और वातायत नियंत्रण, निगरानी और अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी, संचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे कदम उठाकर ही मंकीपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत को चुर्मुट और फलतु पशुओं के लिए निगरानी केंद्र स्थापित करना चाहिए तथा समय-समय जांच परीक्षण करते रहना चाहिए ताकि जानवरों में पनप रहे संक्रमण का पता समय रहते लगाया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों को मंकीपॉक्स जैसे अन्य विशेष प्रकार के संक्रमण के प्रसार के पैटर्न और कारणों को जांच करने के लिए विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। देश-दुनिया में पनप रहे वायरसों के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना होगा। भारत समेत पूरी दुनिया को सजब रहना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि निकट भविष्य में संक्रमण ही मानव के सबसे बड़े दुश्मन साबित होगी।















